



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1738]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 15, 2008/अग्राहायण 24, 1930

No. 1738]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 15, 2008/AGRAHAYANA 24, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2008

का.आ. 2883(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 2135(अ), तारीख 17 दिसम्बर, 2007 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के थाणे जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के 470.800 कि.मी. से 539.000 कि.मी. (वादापे-गोंडे सेक्शन) तक के भूखंड का बाईपास सड़क निर्माण, (चार लेन का बनाने), अनुरक्षण, ब्रम्भ और प्रचलन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 30 जनवरी, 2008 को "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" और "महाराष्ट्र टाइम्स" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और, आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लिंगों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के 470.800.000 कि. मी. से 539.000 कि. मी. तक (वादापे-गोंडे सेक्शन) के प्रस्तावित मार्गधिकार में वर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुका का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण/गट संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	धाने	1.भीवडी	(1) वाहुली	18/4 18/5	निजी निजी	शुष्क शुष्क	50 230	सुरेश बाबु सिंदे नाउ अमबो जादव बाबु अमबो जादव राजाराम अमबो जादव जीजा विठल पाटिल लक्ष्मणन भाउ जादव भारत भाउ जादव सन्तुधन भाउ जादव वनीता ईनाथ शेलार भारती देवदास शेलार अंजना बलराम भांगर अन्य राईट लोन आफ पांडारा सोसायटी आफ रुपये 4200/-
				19/1 भाग	निजी	शुष्क	200	केशव बाबु भीर अन्य राईट लोन आफ पांडारा सोसायटी आफ रुपये 30000/- और 500000/-
				20/1	निजी	शुष्क + पोट खराबा	130	प्रताप बाई एस थाक्कर
				20/2	निजी	नम	100	कान्ता शंकर दाउत और दमोदर कोंदु भीरे नरायणन नामदेव विविमन स्सीता और लक्ष्मीबाई लुका भोरे अन्य राईट विठोबाबाई रघुनाथ भीमाबाई कालुराम गादाबाई वसन्त भागुबाई गजन्म
				23/2 भाग	निजी	नम	30	तुकाराम मालजी केशव बाबु भोईर अन्य राईट लोन आफ पांडारा सोसायटी आफ रुपये 26000/- और 300000/-
				26/9 भाग	निजी	शुष्क	17	रामानीकलाल नरायणन पटेल भारत रमनीलाल पटेल कस्तुरबेन रमनीलाल पटेल
				24 भाग	निजी	शुष्क	345	अद यासमीन अली शाईख कुपुरचन्द गासेरानी चामपबेन जीनतीलाला जकारदी
				26/12 भाग	निजी	नम	25	अमबो विष्णु और जानकीबाई पोसा शेलार
				26/13	निजी	नम	30	अमबो विष्णु और जानकीबाई पोसा शेलार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				26/14 भाग	निजी	नम	15	केशव बाबु भोरे और राईट लोन आफ पांडगा सोसायटी आफ रुपये 500000/- और 300000/-
				49/3 भाग	निजी	शुष्क	65	मनीक विष्णु गुरुनाथ और चानगुना भोरया कातकारी शंकरराम लाहु कातकारी अन्य राईट मंगलाबाई सोमा वगहे लोन आफ पांडगा सोसायटी आफ रुपये 50,000/-
				48/3 भाग	निजी	नम	15	रमनकीलाल नरायणन पटेल भारत रमनीलाल पटेल कासतुरबेन रमनीलाल पटेल केशव बाबु भोईर अन्य राईट लोन आफ पांडगा सोसायटी आफ रुपये 500000/- और 300000/-
				61/1 भाग	निजी	शुष्क	145	बालु शिवा माते मारुति रघुनाथ माते
				81/2 भाग	निजी	नम	30	शाईपाली शंकर भोईर
				77/1 भाग	निजी	शुष्क & एनए	200	पी वरगीस फील्दीप अन्य राईट लोन आफ रुपये 3703 और लोन आफ रुपये 27,935/- आफ परोविडेन्ट फण्ड और ईएस आईएस निर्मला हरीचन्द्रा विलास मदन और सुभाष शंकर शास्त्री बाबी गुरुनाथ तारने
				1/3 भाग	निजी	नम	200	राजेश जमनादास थाक्कर
				15/1	निजी	शुष्क	300	बाबु अमबी जादव राजाराम अमबी जादव जीजा विठल पाटिल लक्ष्मणन भाउ जादव भारत भाउ जादव सनुधन भाउ जादव वनीता ईनाथ शेलार भारती देवदास शेलार अंजना बलराम भांगर अन्य राईट लोन आफ पांडगा सोसायटी आफ रुपये 4200/-
				15/2 भाग	निजी	शुष्क	100	अकुंश बाबन मोतीराम मधुकर बलराम ताई लक्ष्मी बाबु जादव अलपेश

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								अकशय प्रियंका और जाईश्री जयाराम जादव
				15/5	निजी	नम	400	अनान्ता हरीभाऊ पटेल आशा अन्नता पटेल
				15/9 भाग	निजी	शुष्क	50	अकुश बाबन मोतीराम मधुकर बलराम ताई लक्ष्मी बाबु जादव अलपेश अकशय प्रियंका और जाईश्री जयाराम जादव
				19/2 भाग	निजी	नम	800	तुकाराम बालु भोईर सोनीबाई शंकर जादव युमु बुधा गायकर पादी तातु देशले बाबी कालुमसम पीतमबारे अन्य राईट लोन आफ पादागा सोसायटी आफ रुपये 10,000/- और रुपये 1,50,000/-
				19/3 भाग	निजी	शुष्क	100	दुंदा गोपाल गायकर
				19/4 भाग	निजी	नम	280	मीना भानुदास श्रीकान्त रामचन्द्रा गायक अल्का राजेश काटहोले अन्य राईट लोन आफ पादागा सोसायटी आफ रुपये 35,000/- और रुपये 2,00,000/-
				19/5 भाग	निजी	शुष्क	200	कालुराम लाहु भीर अन्य राईट लोन आफ पादागा सोसायटी आफ रुपये 6,000/- और रुपये 1,00,000/- पडुरंगा ईकनाथ विठठल भोरे कान्ताबाई शान्तराम भोरे अन्य राईट लोन आफ पादागा सोसायटी आफ रुपये 15,000/- और रुपये 2,51,000/-
				19/6 भाग	निजी	शुष्क	50	केशव बाबु भोरे अन्य राईट लोन आफ पादागा सोसायटी आफ रुपये 30,000/- और रुपये 3,00,000/-
				19/8/2 भाग	निजी	गैर कृषि	50	राजेन्द्रकोर मनपरीतसिंह मेहरवानसिंह हरीतसिंह मल्लोहत्रा
				19/9 भाग	निजी	नम	470	मनपरीतसिंह मेहरवानसिंह

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								हरीतसिंह मल्लोहत्रा
				19/11 भाग	निजी	नम + शुष्क	100	बुधिया और जानु चानगो भोरे अन्य राईट लोन आफ पादागा सोसायटी आफ रुपये 50,000/-
				19/12 भाग	निजी	नम	300	केशव बाबु भोरे अन्य राईट लोन आफ पादागा सोसायटी आफ रुपये 50,000/-
				30 भाग	निजी	गैर कृषि	20	जवीरचन्द लीलाधर शाह ताराचन्द हाजी शाह ताराचन्द ह्यामजी सेवला
				57/11 भाग	निजी	गैर कृषि	1630	सुमीत्रादेवी अलारचन्द उषाल सुरजीतकोर जागीन्द्रसिंह सबलोक
				57/12 भाग	निजी	शुष्क	3	इजाज अब्दुल एतीफ जीरुमी
				56 भाग	निजी	नम	1100	संजय और दीपक मखनलाल गुप्ता
				57/3 भाग	निजी	शुष्क	2000	दी बोम्बे ट्रांसपोर्ट को. पो. कनजुमर सोसायटी वीज अध्यक्ष एस दलजीत बाल महोम्मद रीस जीस महोम्मद चौधरी (लेक)
				87 भाग	निजी	नम	400	मधुकर गणपत तारे देवकीबाई दामु पाटील
				60/4 भाग	निजी	नम	43	बालु शिवा माते
				80/1 भाग	निजी	शुष्क	4200	शैपाली शंकर भोरे अन्य राईट ट्रांसजेक्सन इन कन्वेंशन आफ फरगमेशन एक्ट समीता अमरुत पुजा और हरदीक सुरेश शेखर
				73/4 भाग	निजी	गैर कृषि	250	महोम्मद हसन मालबारी सयैद काब्रुदीन नारुदीन कादरी अन्य राईट को युज आफ सन्तोष पवार आन बिहाफ आफ बीपीसीएल को 36 साल और 8 महीन का
			(2) पड्या	110/1 भाग	निजी	नम	40	शान्तिलाल कुन्दानमल महाजन पोरवल अन्य राईट परोहेबीसन ट्रांसफर राईट इन केश नम्बर 333/98 सीवल कोर्ट मे
				112/1 भाग	निजी	नम	20	शान्तिलाल कुन्दानमल महाजन पोरवल गुलाम हुसैन सोडकतली खान रीयाज अहमद मुसतकीन अन्य राईट (ट्राजेसन इन कनवरसेसन आफ फरगमेशन एक्ट)
				107/2 भाग	निजी	नम	650	रामचन्द्रा मधु भोंगरे अन्य राईट टालावली सोसायटी आफ रुपये 1,55,000/-
				69/1/1 भाग	निजी	नम	20	ईश्वरसिंह शामुकसिंह परातीमा भारत शाह बीपीन केशवलाल धारीया जवीरचन्द जेठा शाह
				82/1 भाग	निजी	गैर कृषि	230	चन्द्रकान्त गणपत पाटील, अन्य राईट श्री चन्द्रकान्त गणपत पाटील, गार्डियन श्रीमति पुजा कन्सटीटुड आफ एटोरीन आफ चन्द्रकला गणपत पाटील

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				167 भाग	निजी	शुष्क	1400	जितेन्द्र और मनीज नेमीचन्द शाह, सुसीलबेन जितेन्द्र शाह, प्रकाश श्रीकरुशाना धर्माकर, शान्ताबाई श्रीकरुशाना धर्माकर, सवित्री प्रभाकर धर्माकर
				23 भाग	निजी	नम	120	जीतेन्द्र और मनोज निमीचन्द शाह
				15/3 भाग	निजी	गैर कृषि	700	रफीक अकबर कासकर, हमीद बाबा बालेरे, अन्य राईट राईट बैंक भातसा कनाल, रफीक अकबर कासकर, मो साफी अयाक लाकादवाल, मो साफी लाकादवाल, सबीर अहमद लाकादवाल, महोम्मद अरसद अयुब लाकादवाल, ईसाबी अयुब लाकादवाल, अन्य राईट शनेख जीस महोम्मद खान, कीरुल्लाह दीलदार खान, अबदुल कलाम महोम्मद जीकरी खान, महोम्मद मुसताफ बारसा निमनोहर, महोम्मद रफीक अतुल्ला चौधरी, रफीक अतुल्ला महोम्मद बसीर खान
				107/1 भाग	निजी	नम + गैर कृषि	4200	अशोक सदाशिव काराधकार, सन्दीप गणेश काराधकार, नितिन वसन्त काराधकार, विद्या गणेश काराधकार, लोहार सुतार समाज ट्रस्टी अशोक मोरेशवर जाधव, दमोदर गजान्न दलवी, राजेश रामाचन्द्रा सोमवंसी, अजीत लक्ष्मण गोने, विठल शंकर चावरे, निलकान्त लक्ष्मण गोने, प्रफुल्ल एम शाह फार मैसस राहुल ईन्द्रपर्राईस
				80/3 भाग	निजी	गैर कृषि	500	बुधीयाजी महाधु राउत, ध्यानेशवर बुधीयाजी राउत, राजेन्द्र पांडुरीनाथ कीसमतराव, चन्द्रकान्त तरीमबक कीसमतराव, शीलेश, पालवी, शीतल शारदा बीदवी फार स्वय और गार्डियन आफ शाईलेश एवम् पालवी सुलाभा सुनील बीदवाई, दिनेश बालकृष्णा बीदवी, अशोक बापु कोनदालेकर, शंकरे दुंधा गोदवीनदे, रघु काअहोदे पदावाल, रुपेश सुन्द्र पाटील, राजेन्द्रा दशरथ जाधव, विजय राम दुलारे गोर, सकील अहमद भाहुजुल्लाह सिदकी, अन्य राईट मीमुन निशा शाहमुल्लाह हारवाज, रामतील सोनगुर चौधरी, जमल अहमद जीनुरह शाईख, मुबारक हुसैन असमन अली खान, साफत महोम्मद हादीस अली खान, मो युसफ अरीफुल्लाह खान, सामीरुल्ला शाकुल्ला चौधरी, नासीबुल्ला अबदुल रफीक चौधरी, बासीदुल्ला अबदुल रफीक चौधरी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				80/7/1 भाग	निजी	गैर कृषि	1720	रमेश दातारारे तातबोली, विजय हरीभाऊ बीदवी, मंजुर महोम्मद अमी पटेल, रेहाना मंजुर पटेल, मकसुद मोहम्मद अमीन पटेल, असीफ गुलाम अली फरीद
				20/3 भाग	निजी	गैर कृषि	710	अमीन अहमद नानदोलया, सलीम अजीज नानदोलया, समीर ईमतीयाज नानदोलया, फीरोज हकीक पटेल
				71/सी	निजी	शुष्क	10	मुक्तार ए रजाक दिवाकर, महोम्मद अमीन दिवाकर, शाहबाज अमीन दिवाकर, जितुनबी ए रजाक दिवाकर, अन्य राईट - जकीर बीलाल खोट, जाहीद ए रजाक दिवाकर, अमीना मंसीक खोट
		(3) कोसीमी		34/1 भाग	निजी	नम	2100	शंकर उंदरु, दातातराय उंदरु, यशोदा उंदरु, निर्मला और जयाश्री गुननाथ ठाकरे, विमला हरीचन्द्रा हारद अन्य राईट सीताराम रामाचन्द्रा बीदवी
				34/4 भाग	निजी	नम	100	शान्ताराम बालु ठाकरे, अन्य राईट कोसीमीबी सोसायटी रुपये 7,000/- रुपये 1,50,000/-
				76/1 भाग	निजी	शुष्क	180	जयारामदास नानकराम जालाली
				76/4/1 भाग	निजी	नम	780	मुधु बुधाजी ठाकरे, कासी शान्ताराम, कालु बालु जाधव, अंजना, लता, संजय वर्मा ठाकरे, माईनर गार्डियन अंजना वामन ठाकरे, दिनेश, योगेश, राहुल, विकास और फुलवन्ती किशन ठाकरे, अभय सुवामा, सुगांधा, चन्द्रकला गोविन्द ठाकरे, अन्य राईट कोसीमीबी सोसायटी रुपये 3,400/- रुपये 8,000/-, रुपये 11,000/- और रुपये 14,000/- निलेश और अलपेश अन्त हावरे
				74/1/1 भाग	निजी	नम	250	बाबाजी, गोमा और नामदेव नरायणन ठाकरे, मुधु बुधाजी ठाकरे, कासी शान्ताराम, कालु बालु जाधव, अंजना, लता, संजय वर्मा ठाकरे, माईनर गार्डियन अंजना वामन ठाकरे, दिनेश, योगेश, राहुल, विकास और फुलवन्ती किशन ठाकरे, अभय सुवामा, सुगांधा, चन्द्रकला और अरुण गोविन्द ठाकरे, अन्य राईट कोसीमीबी सोसायटी रुपये 3,000/- रुपये 8,000/-, रुपये 11,000/-, रुपये 14,000/- और रुपये 35,000/-
				74/1/2 भाग	निजी	शुष्क	170	बाबाजी, गोमा और नामदेव नरायणन ठाकरे
				74/3 भाग	निजी	नम	200	सनेहल शीनाथ तावरे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				74/5 भाग	निजी	गैर कृषि	80	श्रीराम बारकु महाजन अन्य राईट पारसीक जन्ता बैंक पंदागहा आफ रुपये 10,00,000/-
				74/6 भाग	निजी	नम	180	श्याम सुकारया काटोरे
		(4) कासने	214/6 भाग	निजी	नम	670		रामचन्द्रा देगामबर मानोरे, सुमती वसन्त, अरवीन्द प्रकाश, निर्मला बालकरुशान मानोरे, अन्य राईट देवु दातु कोलेकर, गुलाब बारकु माली, दनयेश्वर दातु कोलेकर, सीरेश और सचिन दुदाराम कोलेकर
			214/9 भाग	निजी	नम	30		रुपेश , राजन और मनोज अशाक पटेल
			198/2 भाग	निजी	गैर कृषि	700		निलेश प्रताप नन्दा
			42	निजी	गैर कृषि	450		गणपत विनायक हालके, अन्य राईट लोन बैंक आफ महाराष्ट्रा शाहपुर औ रुपये 4,50,000/- राईट युज आफ बीपीसीएल फार बम्बई मानमद पाईपलाईन , प्रदीप राजाराम सलबी अन्य राईट टु युज आफ बीपीसीएल फार बम्बई मानमाड पाईपलाईन
			16/2 भाग	निजी	गैर कृषि	330		जयकिशन भीमसेन डिगरा अन्य राईट माइनर मीनेराल पेनलटी आफ रुपये 10,13,250/- राईट टु युज आफ बीपीसीएल बम्बई मनमाड पाईप लाईन
		(5) कांडली	16/7 भाग	निजी	गैर कृषि	10		राजेन्द्रसिंह, प्रमजीतसिंह और जजीतसिंह भगतसिंह परमार अन्य राईट राईट टु युज आफ बीपीसीएल फार बम्बई मनमाड पाईपलाई
			85/1 भाग	निजी	शुष्क	20		जयप्रकाश वारधाकान्त कामत, सुनील प्रभाकर टेमकर , राधिकी सुनील टेमकर
			85/3 भाग	निजी	नम	90		सुमीत्राबाई आत्माराम पाटिल
			9/1 भाग	निजी	नम	90		सुमीत्राबाई आत्माराम पाटिल
			9/4 भाग	निजी	नम	60		भगीरथी,ताराबाई शिवा काटोर कामलाकर विसाल दातु कातोरे, निवरुथी, नितिन, भीवा, गुलाब और निशा पांडुरंगा काटोरे , किशोर विशाली , सोनी रोहन, सुगंधा विनायक काटोरे, इन्दुबाई मारुति जाधव, राजुबाई बलराम भोरे अन्य राईट कोसीमबी सोसायटी रुपये लोन रुपये 3,300/- , रुपये 50,000/- और रुपये 10,500/- कामधेने मिल्क प्रोडकशन सोसायटी लोन रुपये 1,40,000/- और 1,40,000/-
			3/2	निजी	नम + पोट खराबा	60		दागदु नानु जाधव
			24/3 भाग	निजी + सरकारी	जंगल + गैर कृषि	40		आरक्षित जंगल महाराष्ट्र सरकार श्री गुरुदेव प्रा लि
			16/12 भाग	निजी	शुष्क	840		बिशनदास जगननाथ शर्मा , अमरसिंह भगतसिंह सिन्धु

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
119/5 भाग	निजी	शुष्क	50	लुका गंगाराम सपते अन्य राईट भीनारे सोसायटी रुपये 10,000/- दिनांक 06/06/68				
				52/2 भाग	निजी	नम	390	श्रीनाथ और तुसार यशवन्त चौधरी, पंकज और धीरज गुरुनाथ चौधरी
				118/1 भाग	निजी	शुष्क	340	श्रीनाथ और तुसार यशवन्त चौधरी, पंकज और धीरज गुरुनाथ चौधरी
				55/2	निजी	शुष्क	20	रघुनाथ शंकर दोंगारे, लक्ष्मीबाई, रमेश, यशवन्त, आनन्त और रविन्द्रा मोतीराम दोंगारे, आशा, भवेश, भगवान बालकुरुशान दोंगारे, शाकुन्तला वसन्त गुलावी, गलाब गजान्न पाटिल, जयवन्ती शंकराराम भोईर
				74/15 भाग	निजी	गेर कृषि	50	महदी हसन चौधरी
				51/1 भाग	निजी	गेर कृषि	1050	अशोक ज्ञानचन्द वोरा
				51/2 भाग	निजी	गेर कृषि	280	अशोक ज्ञानचन्द वोरा
				119/2 भाग	निजी	गेर कृषि	1370	रामकुरुशा छत्रपति पाटिल
				55/1 भाग	निजी	गेर कृषि	1350	विनोद, प्रशान्त, जयश्री कुरुशान तुपे
				55/3 भाग	निजी	गेर कृषि	250	विनोद, प्रशान्त, जयश्री कुरुशान तुपे
				119/4/1 भाग	निजी	गेर कृषि	1320	मैसस सीमा रियल ईस्टेट डिवलपर प्रा लि
				119/4/2 भाग	निजी	गेर कृषि	1220	मैसस सीमा रियल ईस्टेट डिवलपर प्रा लि
				52/1 भाग	निजी	गेर कृषि	4450	दिपक संजय मखनलाल गुप्ता
				(8) बोहोले	56/5 भाग	निजी	शुष्क	100
52/8 भाग	निजी	नम	280		मारुदीन, मीसबुदीन सुजाबुदीन और नुरुदीन निजामुद्दीन अनसारी इमीद, सलीम और सुगारा युसफ साईख कातीजा अदाम शाईख, अजीजा तयाद शाईख, अन्य राईट लोन के लिए शान्ताराम रामकुरुशान पथारी लोन रुपये 294/-			
70/1 भाग	निजी	गेर कृषि	80		राईस महोम्मद टी चौधरी, रीयाज बिसमिल्ला सामनी, महोम्मद उमर महोम्मद अली खान			
71/2 भाग	निजी	गेर कृषि	30		राईस महोम्मद टी चौधरी, रीयाज बिसमिल्ला सामनी, महोम्मद उमर महोम्मद अली खान			
69/5 भाग	निजी	नम + पोट खराबा	70		माधुरी अनील दाबहोलकर			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				100 बी भाग	निजी	शुष्क	300	अनसार अहमद महम्मद यासीन अनसारी, मोनीना फरीद अहमद अनसारी, साबाना ए मलीक अनसारी, जपहेर आलम फारीद अहमद अनसारी, सुबना सलीम अनसारी, कुरसीद आलम फारीद ए अनसारी, खालीक फारीक ए अनसारी, शाहीद फारीक ए अनसारी, सलमान फारीद ए अनसारी
				102/4 भाग	निजी	शुष्क	250	रुघनाथ कश्यप जाधव
				102/5/2 भाग	निजी	शुष्क	1200	जहीयुदीन तोराजुदीन अनसारी, अन्य साईट लिम. साईट आफ फावजुदीन जहीयुदीन अनसारी फार 20/10/1987 से 99 साल के लिए
				102/7 भाग	निजी	शुष्क	1600	निर्मलसिंह हरबंस दहीवाल, रत्नपालसिंह दलबीरसिंह फारवा अन्य साईट साईट गुज बीपीसीएल फार बम्बई मनमाड पाईपलाइन
				87/2 भाग	निजी	गेर कृषि	170	निवर्धनी गंगासम अवहद, समुन निवर्धनी अवहद अन्य साईट साईट गुज आफ बीपीसीएल फार बम्बई मनमाड पाईप लाईन अन्य साईट लफट बैंक वातसा नहर
				104 भाग	निजी	शुष्क + गेर कृषि	1000	छया जयवंत मेहर, हरलीकेश पंडुरंग दिवालीकर आसा मुसलिकर नीजाई, अन्य साईट साईट गुज बीपीसीएल फार बम्बई मनमाड पाईपलाइन
				56/8 बी भाग	निजी	गेर कृषि	8220	जफार आदिल फरीद अहमद अनसारी, बाकर आदिल अनसार अहमद अनसारी, महम्मद अलीन खालील अलीन अनसारी
				57/8 ए भाग	निजी	गेर कृषि + नम	600	निवर्धनी गंगासम अवहद, समुन निवर्धनी अवहद अन्य साईट साईट कोटावली लफट बैंक नहर, रुघनाथ, लखन, रमेश गोपाल पट्टारे, अन्य साईट आफ बीपीसीएल फार बम्बई मनमाड पाईप लाईन
				52/5 भाग	निजी	गेर कृषि	50	मनोहर श्रीराम तालरेजा, मुका मनोहर तालरेजा
				52/6 भाग	निजी	गेर कृषि	420	मनोहर श्रीराम तालरेजा, मुका मनोहर तालरेजा
				52/7 भाग	निजी	गेर कृषि	730	मनोहर श्रीराम तालरेजा, मुका मनोहर तालरेजा, अन्य साईट आफ बीपीसीएल फार बम्बई मनमाड पाईप लाईन
				71/1 भाग	निजी	गेर कृषि	1900	रखस महम्मद टी चौधरी, शिवाज बिसमीला साम्नी, महम्मद उमर महम्मद अली खान

1	2	3	4	5	6	7	8	9
गिराफत नं	रि			69/13 भाग	निजी	गैर कृषि	130	राईस महोम्मद टी चौधरी, रीयाज बिसमीला सामनी, महोम्मद उमर महोम्मद अली खान
मलाय डेपुट				58/1 भाग	निजी	नम + पोट खराबा	3530	ईजाज सुलतान अली खान, जफीया, रुशान, अजीज ईजाज खान, सलवान अली नामदेव खान, मेहर, जफर और तासबीन सुलतान अली खान, सुमीया जफर अली खान, सीफ और शारीफ जफर खान गार्डियन ईजाज खान आफ रुशान, अजीज, साईफ और शारीफ. अन्य राईट - राईट बैंक बातसा नहर
उद्देश्य फल गिराफत								
नियंत्रित निका			(8) बेरिवली	48/4 भाग	निजी	पोट खराबा	10	ईलीयास लेओ नोरोहन, हेलन ईलीयास नोरोहन अन्य राईट ट्रांस्जक्शन आफ अनवरसेसन आफ फरागमशन एक्ट
उद्देश्य फल गिराफत				49/1 भाग	निजी	नम	40	ईलीयास लेओ नोरोहन, हेलन ईलीयास नोरोहन
हामन डेपुट				49/2 भाग	निजी	नम	50	ईलीयास लेओ नोरोहन, हेलन ईलीयास नोरोहन
गिराफत फल गिराफत				49/3 भाग	निजी	शुष्क	40	निजामुद्दीन सीराजुद्दीन अनसारी
काल लुट उद्देश्य				16/1 भाग	निजी	शुष्क	30	बालु गंगाराम देशले
महाप हामन डेपुट				15/1 भाग	निजी	शुष्क	40	प्रभाकर वामन सोमन अन्य राईट ट्रांस्जक्शन आफ अनवरसेसन आफ फरागमशन एक्ट
उद्देश्य फल गिराफत				3/2 भाग	निजी	शुष्क+नम	20	परतीक्षा पदमाकर भोरे, गोपाल अमबो पीतामबरे, कासीनाथ रामसरण उपाधय, रविन्द्रसिंह सरुपसिंह सबलोक, हर्बससिंह सरुपसिंह सवसोक, चाबीरसिंह सरुपसिंह सबलोक
गिराफत फल गिराफत				3/3 भाग	निजी	गैर कृषि	70	परतीक्षा पदमाकर भोरे
गिराफत फल गिराफत				50/2 भाग	निजी	गैर कृषि+ शुष्क	230	साहिद अबदुल रहीम मोमीन, ईकबाल अहमद ए रहीम मोमीन, हुसैन ए रहीम मोमीन, नुरुल हसन ए रहीम मोमीन, फारुक ए रहीम मोमीन, जवेद ए रहीम मोमीन, अखतरी ए रहीम मोमीन, शकरी ए रहीम मोमीन, प्रवाण ए रहीम मोमीन, नसरीन ए रहीम मोमीन, फीरदुस ए रहीम मोमीन, पांडुरंगा दातु देसले, समशेर अहमद मोहम्मद ईकरम शेख, पंकज पांडुरंगा देसले, ईजेर अली हुसैन सिद्धिकी, रफीक जलालुद्दीन चारोलीया, जगन्नाथ दातु देसले, सुरेश शंकर साधुनखे, नरेश ताकुरनानंद शर्मा अन्य राईट लोन पांडुरंगा सोसायटी आफ रुपय 2,50,000/-
गिराफत फल गिराफत				3/4 भाग	निजी	गैर कृषि	110	रविन्द्रसिंह, हर्बसिंह और रवीरसिंह सरुपसिंह सुबलोक

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0038	श्री शम्भूजी शिंदे	वसुधा पाईप लाइन	29/3भाग	निजी	शुष्क	1490	मन्मई नगरपालिका कोषसेन	
0039	श्री शम्भूजी शिंदे	वसुधा पाईप लाइन	29/9भाग	निजी	नम+गेर कृषि	200	सुमीता, अमरुत, पुजा और हारदीक सुखसे शेखर, रविन्द्र बालीराम शेखर	
0040	श्री शम्भूजी शिंदे	वसुधा पाईप लाइन	65भाग	निजी	नम	220	सुदामा कानहा मातरे, सुमन सुदामा मातरे निदेशक मैसे अकस्ती लैड डिवलपमेंस अरवीन्द इतर्भुज वोरा मनसुललाल चतुर्भुज वोरा	
0041	श्री शम्भूजी शिंदे	वसुधा पाईप लाइन	30भाग	निजी	गेर कृषि	750	रतन संजय गुप्ता, अनुपम दीपक गुप्ता, अनीता शिवकुमार गुप्ता अनीता महादेव गुप्ता, निदेशक नितिन कुमार जोरा मैसेर्स अरवली एगो दुल्स एवम् सिडस प्रा लि	
0042	श्री शम्भूजी शिंदे	वसुधा पाईप लाइन	19/3भाग	निजी	गेर कृषि	350	सुदामा कानहा मातरे, सुमन सुदामा मातरे	
0043	श्री शम्भूजी शिंदे	वसुधा पाईप लाइन	16/4भाग	निजी	गेर कृषि	600	प्रेमलता, रेणुका, विनेश शेखर देवदीया अबदुल मारमन नियामातुल्ला खान अन्य राईट लोन आफ बसेनी काटोलीक बैंक लि, पापदी, वासी रुपये 29,00,000/- एवम् रुपये 2000000/-	
0044	श्री शम्भूजी शिंदे	वसुधा पाईप लाइन	16/2भाग	निजी	गेर कृषि	2300	इरफान जलील पटेल, अब्बास नारीमुल्ली चौधरी, प्रेमशंकर शिवशंकर नानुकुम जेसवाल अबदुल अजीज अबदुल लतीफ शेख, अनीस मोहम्मद युसुफ अनसारी	
0045	श्री शम्भूजी शिंदे	वसुधा पाईप लाइन	12भाग	निजी	गेर कृषि	1850	विजय, विपेश और दिव्या किशोर साहना गार्डियन मंदर रेशमा किशोर लोहना	
0046	श्री शम्भूजी शिंदे	वसुधा पाईप लाइन	11/1भाग	निजी	गेर कृषि	120	विपिन रामजी कातीरा	
0047	श्री शम्भूजी शिंदे	वसुधा पाईप लाइन	19/4भाग	निजी	गेर कृषि	1700	लाखबी कोर साहेबसिंह, संघु सरबीजीत सिंह साहेबसिंह	
0048	श्री शम्भूजी शिंदे	वसुधा पाईप लाइन	19/3भाग	निजी	गेर कृषि	2200	प्रेमलता, रेणुका, विनेश शेखर देवदीया अबदुल मारमन नियामातुल्ला खान अन्य राईट लोन आफ बसेनी काटोलीक बैंक लि, पापदी, वासी रुपये 29,00,000/- एवम् रुपये 2000000/-	
0049	श्री शम्भूजी शिंदे	वसुधा पाईप लाइन	24/2भाग	निजी	नम+एनए	1000	मुखतीयार, रिदवन, मुहल्लीश ईसमील शिख, गनी, सुमान, अयुब, जबार, अमीन अहमद शिख, मुदासर, मोजम, मुक्शीन मुसताक शिख, शबनुर एफीक शिख, शबनुर इरफान शिख, अखतर असमान शिख सऊद सरवीस रोड और खाली जगी बाबुलुल्ला, सामीउल्ला, सीफुल्ला हाकली चौधरी	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				25/2भाग	निजी	नम+एनए	3530	मुखतीयार, रिदवन, मुहरुनीश ईसमील शिख, गनी, सुभान, अयुब, जबार, अमीन अहमद शिख, मुदासर, मोजम, मुबरीन मुसताक शिख, शबनुर रफीक शिख, शाबनुर ईरफान शिख, अखतर असमान शिख अन्य अधिकार लोन पादगहे सोसायटी रुपये 25000/- बाबलुल्ला, सामीउल्ला, सीफुल्ला हाकली चौधरी, मोहम्मद शारिफ मुमताज खान, रंगीलाल जीनु शर्मा, हाजी अबुबाकर हाजी किताकुल्ला, सयैयद हुसैन नबी रहेमान, मजार हुसैन शोकत अली
				26/5 भाग	निजी	गैर कृषि	600	प्रदमनाभन दुदा कोटीयन, आन्नद गोपाल जाटन, मनीषा प्रदमनाभन कोटीयन, कविता आन्नद जाटन अन्य राईट लोन दि भारत का ओ बैंक मुम्बई रुपये 50,00,000/-
				17/1 भाग	निजी	गैर कृषि	300	गुल्लाम हुसीन मोहमद इसमील मोमीन मो. अफजल इसमील मोमीन, मकसुद अहमद इसमील मोमीन
				28/1 भाग	निजी	गैर कृषि + नम	2800	चन्द्रकान्त और सुरेश सीताराम बीदवी ईब्राहिम अल्लुदीन पटेल, अन्य राईट ईब्राहिम पटेल
				1/132/1ए भाग	निजी	नम	500	केवलचन्द गनेशमल जैन मेहेन्द्रकुमार मिसरीमल जैन, अजय कुमार मधुसुदन साधु
				2/4 भाग	निजी	नम	100	राफत मो. अमीन शिख
				12 भाग	निजी	गैर कृषि	1235	विपिन रामजी कातीरा
				13/1 भाग	निजी	नम	1850	सुर्या मुसताक पटेल
				13/2 भाग	निजी	नम	1350	जहागीर गुलाम मोहम्मद पटेल, विकास मुसताक पटेल
				13/3 भाग	निजी	नम	1300	जहागीर गुलाम मोहम्मद पटेल, विकास मुसताक पटेल
				14/1 भाग	निजी	फलोधान	70	विकास मुसताक पटेल अन्य राईट लोन टीआरओ(सी) थाने रुपये 1575288/-
				15/1	निजी	नम	920	केवलचन्द गनेशमल जैन मेहेन्द्रकुमार मिसरीमल जैन, अजय कुमार मधुसुदन साधु
				15/2 भाग	निजी	नम	1420	बादरुनीसा मुरतुजा अनसारी, शहनाज खातुन शकील अहमद सिद्दिकी
				15/3/1 भाग	निजी	नम + शुष्क	940	केवलचन्द गनेशमल जैन मेहेन्द्रकुमार मिसरीमल जैन, अजय कुमार मधुसुदन साधु
				15/3/2 भाग	निजी	नम	1388	विकास मुसताक पटेल
				16/2 भाग	निजी	गैर कृषि	1050	विजय, दिपेश और दिवया किशोर लोहना रेशमा किशोर गार्डियन मंदर

T	2	3	4	5	6	7	8	9
				16/3 भाग	निजी	शुष्क	170	मसजिद ट्रस्ट गुलाम हुसीन ए गफुर पटेल अन्य राईट ओर्डनेरी टानाने कारुन्नीसा शफरुदीन देवकर, जहीद शफरुदीन देवकर नुरजहां सयद राईस
				16/4 भाग	निजी	गैर कृषि	1700	इरफान जलील पटेल, अबास नारीमुल्ली चौधरी, प्रेमशंकर शिवशंकर नानुकरम जेसवाल अब्दुल अजीज अब्दुल लतीफ शेख, अनीस मोहम्मद युसुफ अनसारी
				16/5 भाग	निजी	नम	220	मसजिद ट्रस्ट गुलाम हुसीन ए गफुर पटेल अन्य राईट ओर्डनेरी टानाने असमा अब्दुल रसहीद पटेल, मलाईका असमेद कुनवाले
				17/1 भाग	निजी	गैर कृषि	550	अबदुल वहीद मोहम्मद याक़ुक अनसारी, अबदुल अजीज अब्दुल लतीफ शिख, वसीम अब्दुल अजीज शिख, अब्दुल मामन नीयामतुल्ला खान, फारुख गुलाम अहमद पटेल, कालीमुल्ला, अशुल्ला, वालील्ला वाली मो. चौधरी, सुरेश अफासहा गुगाले धर्मेन्द्र कुमार कृपाशंकर दुबे, गिरजा शंकर रामलखन मिसरा, सलमा अजगाराली सोतवाला, इमजाला इसमील बदामी रजाली सोबातली, अबुबक मो, अल्लाम, हाजी अहमद अब्दुल शकुर मारफीनी, जीबुनीशा मो बसीर मेमोन, जाईतुनिशा एम अनीस मरफानी, मो रफीक अहमद मारफीनी फातिमा अब्दुलसमद लाहाव
				17/5 भाग	निजी	गैर कृषि	240	अबदुल वहीद मोहम्मद याक़ुक अनसारी, अबदुल अजीज अब्दुल लतीफ शिख, वसीम अब्दुल अजीज शिख, अब्दुल मामन नीयामतुल्ला खान, फारुख गुलाम अहमद पटेल, कालीमुल्ला, अशुल्ला, वालील्ला वाली मो. चौधरी, सुरेश अफासहा गुगाले धर्मेन्द्र कुमार कृपाशंकर दुबे, गिरजा शंकर रामलखन मिसरा, सलमा अजगाराली सोतवाला, इमजाला इसमील बदामी रजाली सोबातली, अबुबक मो, अल्लाम, हाजी अहमद अब्दुल शकुर मारफीनी, जीबुनीशा मो बसीर मेमोन, जाईतुनिशा एम अनीस मरफानी, मो रफीक अहमद मारफीनी फातिमा अब्दुलसमद लाहाव

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				17/4 भाग	निजी	गैर कृषि	1600	अबदुल वहीद मोहम्मद याकुक अनसारी, अबदुल अजीज अबदुल लतीफ शिख, वसीम अबदुल अजीज शिख, अबदुल मामन नीयामतुल्ला खान, फारुख गुलाम अहमद पटेल, कालीमुल्ला, अत्तुल्ला, वालील्ला वाली मो. चौधरी, सुरेश अप्पासहा गुगाले धर्मेन्द्र कुमार कृपाशंकर दुबे, गिरजा शंकर रामलखन मिसरा, सलमा अजगाराली सोतवाला, हमजाला इसमील बदामी रजाली सोबातली, अबुबक मो, अल्लाम हाजी अहमद अबदुल शकुर मारफीनी, जीबुनीशा मो बसीर मेमोन, जाईतुनिशा एम अनीस मरफानी, मो रफीक अहमद मारफीनी फातिमा अबदुलसमद लाहाव
				17/6 भाग	निजी	गैर कृषि	60	अबदुल वहीद मोहम्मद याकुक अनसारी, अबदुल अजीज अबदुल लतीफ शिख, वसीम अबदुल अजीज शिख, अबदुल मामन नीयामतुल्ला खान, फारुख गुलाम अहमद पटेल, कालीमुल्ला, अत्तुल्ला, वालील्ला वाली मो. चौधरी, सुरेश अप्पासहा गुगाले धर्मेन्द्र कुमार कृपाशंकर दुबे, गिरजा शंकर रामलखन मिसरा, सलमा अजगाराली सोतवाला, हमजाला इसमील बदामी रजाली सोबातली, अबुबक मो, अल्लाम, हाजी अहमद अबदुल शकुर मारफीनी, जीबुनीशा मो बसीर मेमोन, जाईतुनिशा एम अनीस मरफानी, मो रफीक अहमद मारफीनी फातिमा अबदुलसमद लाहाव
				19/3 भाग	निजी	गैर कृषि	881	अबदुल वहीद मोहम्मद याकुक अनसारी, अबदुल अजीज अबदुल लतीफ शिख, वसीम अबदुल अजीज शिख, अबदुल मामन नीयामतुल्ला खान, फारुख गुलाम अहमद पटेल, कालीमुल्ला, अत्तुल्ला, वालील्ला वाली मो. चौधरी, सुरेश अप्पासहा गुगाले धर्मेन्द्र कुमार कृपाशंकर दुबे, गिरजा शंकर रामलखन मिसरा, सलमा अजगाराली सोतवाला, हमजाला इसमील बदामी रजाली सोबातली, अबुबक मो, अल्लाम, हाजी अहमद अबदुल शकुर मारफीनी, जीबुनीशा मो बसीर मेमोन, जाईतुनिशा एम अनीस मरफानी, मो रफीक अहमद मारफीनी फातिमा अबदुलसमद लाहाव

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				69/1ए भाग	निजी	शुष्क	448	केवलचन्द मनेशमल जैन महेन्द्रकुमार मिसरीमल जैन, अजय कुमार मधुसूदन लाल जैनजीव, मलिक अहमद सुब, मुन्साज मिसरीमल, जलेश, पद्मकिशोर पुल्लन र मटेल महानु अम्बा कोणी जलसवार
				69/3 भाग	निजी	शुष्क	6700	केवलचन्द मनेशमल जैन महेन्द्रकुमार मिसरीमल जैन, अजय कुमार मधुसूदन लाल मारुति नाबजी मुगलनुगले, मदीद जलेश रयान ईककल नरमल, जहुर अहमद निजामुदीन शिख सहायसम जहुर अहमद शिख, जहुर अहमद (फलक) मारुतिम
	2. शाहपुर	(1) अटर्गाव		21/1 भाग	निजी	नम	130	प्रतीभा हरीकृष्ण राजपुत नरयणमल और गणेश लखवी मुदासमा, अबदुल लखी अनीज
				31 भाग	निजी	नम	50	रामबाई, मनोज, मीरज, सुल और कलित पांघरीनाथ सालवे मनीष सुहासम अनव सईद एकोजिसन बाई सेनिक मंत्रालय भारत सरकार
				33/8 भाग	निजी	नम	30	नामदेव, कासीनाथ और चन्द्राभागा दाम अधिकारी, चकुनाबाई, पांजुरमा शंकर आशा, शोभा बाबन अधिकारी, बायाबी बाबु मातरे, फासाबाई कासानाथ गागे, जन्नाबाई नरयणन भारत, यमुनाबाई मंगल भादे सुमन दामा अधिकारी, भागीबाई कलु टागदे अन्य सईद सोन अहमदमीय अकबर सोसायटी रुपये 150/-
				33/8 भाग	निजी	नम	200	नामदेव, कासीनाथ और चन्द्राभागा दाम अधिकारी, चकुनाबाई, पांजुरमा शंकर आशा, शोभा बाबन अधिकारी, सुरेश, अरवीन्द नामदेव अधिकारी अन्य सईद लोका अहमदमीया अकबर सोसायटी रुपये 150/- बायाबी बाबु मातरे, फासाबाई कासानाथ गागे, जन्नाबाई नरयणन भारत, यमुनाबाई मंगल भादे, सुमन दामा अधिकारी, भागीबाई कालु टागदे
				46/1 भाग	निजी	गैर कृषि	700	बीबीबाई विठ्ठल सेठी अन्य सईद एकोजिसन बाई सेनिक मंत्रालय भारत सरकार
				36 भाग	निजी	गैर कृषि	1100	मैसस न्यु लोक ईलकटोनिकस सेन्टर पो किरण वासुदेव वाघावनी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				39/3 भाग	निजी	गैर कृषि	1900	गुरुनानक मेटल वर्क्स थाने पार्टनर शशीपाल गुप्ता और रोकेश गुप्ता, दुर्गामा ईस्पात और मेटल प्रा लि पो सुषमा एस गुप्ता अन्य राईट युज आफ बीपीसीएल मुम्बई मंनमाण पाईपलाइन
				40/4 भाग	निजी	गैर कृषि	500	गुरुनानक मेटल वर्क्स थाने पार्टनर नारायण एस गुप्ता, दीपक आर शाह, सतीष पी शाह
				58/2 भाग	निजी	गैर कृषि + शुष्क	200	उत्तमचन्द छगनलाल गांधी अन्य राईट - राईट युज आफ बीपीसीएल मुम्बई मंनमाण पाईपलाइन शेवानताबाई किशन बिनार, सुलोचना बुधा निमसे बी के केन वर्क्स प्रो बिरेन्द्र कुमार बाबानसिन अन्य राईट लोन बैंक आफ बडौदा शाहा कुरला रुपये 9,73000/-
				58/3 भाग	निजी	गैर कृषि + शुष्क	4300	उत्तमचन्द छगनलाल गांधी अन्य राईट - राईट युज आफ बीपीसीएल मुम्बई मंनमाण पाईपलाइन
			(2) सीरोल	915 भाग	निजी	पोट खराबा	650	प्रसराम, वसन्त मालु दागचोउरे
				916 भाग	निजी	पोट खराबा	360	रुकमणीबाई, जगननाथ, विलास भगवान पवार, जयश्री प्रकास चानदरामोरे, भारती गुरुदत्ता भोरदे, कन्चन रमेश जाधव, सुजाता सुरेश भालेराव, वन्धना सीतल, श्यामल अजय प्रमोद पवार
				954 भाग	निजी	नम	200	बावन मालु दापते, भागीरथी गोमा भादे, बरकी कालु भगत, ईन्दु सीदया पानेदा, अनिल नराया कालचिन्दा
				992 भाग	निजी	नम + शुष्क	80	बाबु वलकु दिनकर
				1295 भाग	निजी	नम + शुष्क	1070	जिरजा कामलु दहपाते
				970 भाग	निजी	नम	290	दातु हेमा दहपाते
				946 भाग	निजी	नम	200	बाकन मालु दहपाते, भागी गोमा भागे, कारकी कालु भगत, इनदु सिदया पानेदा अनी नराया कालचिन्दा
				929 भाग	निजी	नम	100	केरु लादाकु विसहे
				978 भाग	निजी	शुष्क	200	विनोद रामदास बालन माते अन्य राईट सरलोक सोसायटी रुपये 600/-
				955 भाग	निजी	नम	200	वालकु, सोमन, सावनती दाउ दहपाते अन्य राईट बुगा शकरु कामदी धोन्दी दातु कामदी, सनी सानया कामदी, अमबी सोमा पिंगला
				969 भाग	निजी	नम + पोट खराबा	500	छानगो दाउ दहपाते, बानो, बुधिया पालो दहपाते, विठठल भाउ दहपाते
				972बी भाग	सरकारी	शुष्क	335	आकरिती पंडित
				927 भाग	निजी	नम	10	जमीलाबाई दाउद दालवी अन्य राईट कन्डीसन एस पर सर्वे सं 488/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(3) गोटेधर	5/2/1/2 भाग	निजी	नम + शुष्क	100	भगवान, गणेश, पुनदलीक, ताई विपक, यमुनाबाई कानदु अधिकारी, कमल प्रकाश अनदादे, विमल प्रकाश अनदादे, कान्ता प्रकाश गंतीर
				30/2 भाग	निजी	गैर कृषि	35	रवलसिंह करतार सिंह भोपासय, सुमिला, आनन्द, मनीष अजीत मारुति भोरे, वसन्त अमबो पदावेल, विपक शिवराम भोरे, सदाशिव देवु दुधले सुनीता शान्तराम भोरे, अशोक देवदास पवार, आनन्त परसु गाते अन्य राईट जंगल
				36 भाग	निजी	शुष्क + नम	700	कान्ताबाई दात्ताराय, लता, उमा, किशोर फाकीरा दिंगोरे, मनोहर, अलका और गुलशन श्याम दिंगोरे, बालाशाहेब पंधारिनाथ सिन्धे, जनाबाई शंगाराम देसले, लक्ष्मण पालो अधिकारी, काचरु माधु दिंगोरे, जुंगले पालो अधिकारी, लाहु माधु दिंगोरे, भगवान, गणेश, विपक और ताई यमुनाबाई कान्दु आंदादे, कमलेश कान्तीलाल शाह, जाबी गोविन्द कातिक, पंडुरंग लक्ष्मण अधिकारी
				7/2 भाग	निजी	गैर कृषि	400	किशन अमबो भानदे
				7/3 भाग	निजी	गैर कृषि	100	किशन अमबो भानदे
				24ए/1 भाग	निजी	नम	400	मोहम्मद अली, अकबर अली मोहारी, सराफ अली अकबर अली मोहारी
				29/1 भाग	निजी	गैर कृषि	50	अरुण तुकाराम अकानदे
			(4) वास्ती	153 भाग	निजी	शुष्क	20	बालकरुशन कालुराम तारने, वेद विगयान विध्यापेट, बंगलोर, अन्य राईट राईट बैंक बाटसा नहर
				184 भाग	निजी	शुष्क	170	तुकाराम हरी हलके, कुशी गोविन्द हलके अन्य राईट लोन काटीवडी सोसायटी रुपये 3000/- रुपये 3000/- एवम रुपये 7500/-
				201 भाग	निजी	शुष्क	10	गणपत विठु तारने, मीराबाई नामदेव जाधव, विठाबाई शसकाराम, देवु विठु तारने, अन्य राईट लोन आफ कातिवडी सोसायटी रुपये 250/- रुपये 800/- एवम रुपये 4000/-
				179 भाग	निजी	गैर कृषि	2580	वेद विगयान महाविद्यालय बंगलोर
				206ए भाग	निजी	गैर कृषि	1700	कमला आत्माराम पागरे, असीफ मुमताज, रुकशान, भीलाल, सफीना, अशिकुचन्द शिईख, रहेजा, मीनझा सयैद, सफीना मोहेम्मद शिईख, अन्य राईट लोन आफ अर्बन को ओ सोसायटी एवम वरानगांव सोसायटी रुपये 400000/-
				212/1 भाग	निजी	गैर कृषि	350	सरदार केबलसिंह, सरवानसिंह जोगिन्द्रसिंह उजागरसिंह
			(5) पीपलपाडा	67 भाग	निजी	नम	900	हरिनारायण लक्ष्मीसिंह

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				58भाग	निजी	गैर कृषि+ नम	2500	शाईख अहमद मसूमभाई अखतर, कानखान गरीश नानदेकर, श्यामबाई, ईकवाल, अरीफ, ईब्राहिम, शहजाहन अबदुल रहमान अखतर, कुरबानो रफीक अखतर, मुबारक कादिर अखतर, लतीफ युनुस अखतर, नाफिशा ईकबाल अखतर अन्य राईट लोन कादकी सोसायटी रुपये 175/-
				56भाग	निजी	शुष्क	1219	अबदल अजीज एम ईब्राहिम शाईख अनुजा अरुण कानबीलकर
			(6)कातीवली	230भाग	निजी	शुष्क	1230	मांगलाय, भाजन शिवा कातकारी, गंगुबाई दामा कातकारी, चांगी कामलु कातकारी अन्य राईट लोन कातिवली वासहिन्द शाहकारी सोसायटी रुपये 100/- कन्डीसन एस पर मुतातिन ईन्टी सर्वैय सं 9 (न्यु तेनुरे)
				217 भाग	निजी	शुष्क	150	रामाचन्द्रा रानगु काबाडी अन्य राईट कन्डीसन एस पर मुतातिन ईन्टी सर्वैय सं 9
				216 भाग	निजी	शुष्क	30	ददेवकाबाई चन्द्रकान्ता वागहे अन्य राईट सरकारी राईट पेड ओर बुशेस
				352 भाग	निजी	नम	30	चिन्तामन कमलकर, निर्मला, विजय ओर यासुदेव जाधव, कविता, कालुराम शास्ते, चन्द्रकला जगनथका भेरे, राजश्री राजेन्द्र पवार अन्य राईट लोन कातीवली वशिन्द शहकारी सोसायटी रुपये 3000/- रुपये 100000/- रुपये 5000/- ट्रांजेक्शन आफ कनबरटर आफ फरगमेशन आफ सकशन 43 बीटी एवम एएल एक्ट भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग सखया 3
				353 भाग	निजी	नम	100	मनोहर विलास, चन्द्रकान्ता लक्ष्मीबाई प्रमोद बालु जाधव जयावन्ती जयावत मोईर लक्ष्मीबाई बालु जाधव
				263 भाग	निजी	नम	50	बचनसिंह, रतनसिंह, रणजीतसिंह सुलोसनसिंह गील अन्य राईट कन्डीसन एस पर मुथथीन एन्टरी सर्वैय संख्या .9 एकोजिसन फार राइट बैक आफ बसतारा नहर
				240 भाग	निजी	गैर कृषि	1400	योगेन्द्रपाल खन्ना, सुदेश योगेन्द्रपाल खन्ना अन्य राइट - राईट युज बीपीसीएल फार बम्बई मंमाण पाईपलाईन
				25 भाग	निजी	गैर कृषि	820	लता रमेश गालपे, सविता भास्कर जाधव, पोमम पांडुरंगा पाटिल, जनार्थन यशवन्त मोईर, प्रेमकुमार सांचान गुप्ता अन्य राईट कन्डीसन एस पर मुथाथिन एन्टरी सर्वैय संख्या 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				351 भाग	निजी	मैक कृषि	900	ज्योतसना विश्वनाथ दोंगारे, गजान्न नारायण भागवत, फीरोज रतन शाह संजय, वसन्त गणेश कारनीक, नन्दकुमार दवाकरनाथ गुजारे, सुगंधा पंडारीनाथ गुजारे, राहुल पंडाराना गुजारे, रुपेश पंडारीनाथ गुजारे, अन्य राईट लोन दोमबीवाली नागरी सहकारी बैंक शाहपुर रुपये 18,67,000/- विश्वनाथ रामाचन्द्रा दोंगारे, महादेव विश्वनाथ देसाई, उदय वसन्त कारनीक, अरोकल ओने थोमस, अरनकोल ओने थोमस अरनकोल ईफेन थोमस, जयराम नाना जाधव अन्य राईट कन्डीसन एज पर मुटाटीन मे सर्वे संख्या 9
				251 भाग	निजी	नम	100	बायमाबाई जानु बीज, मंजुला नावसु गवाने, थाकीबाई नामदेव गंगोदे, जानकी हालया देअ शक्तराम, रमेश सेवनती सीताशम वेद अन्य अधिकार कन्डीसन मुटाटीन मे सर्वे संख्या 9
			(7) कलमे	1ए भाग	निजी	नम	50	नानु, लक्ष्मण, लाहु और शान्ताशम नामदेव धालपे अन्य अधिकार लोन टागी रुपये 150/- दिनांक 07/06/1995
				41ए भाग	निजी	नम	50	जगदीश, सतीश कासीनाथ गुजारीधी, नितिन श्रीकुलाल गुजराती, करुणा उमेश शाह, रुपा सुरेन्द्रकुमार सरोफ, सीलपा सुगनेश शाह, दिपा गतेश कलयाणी, वसन्ती श्रीकुलाल गुजराती, राजेन्द्र, मीलीद्र सुरेश गुजराती, विना मुकेश सरोफ, हेमा मुकेश कपादीया, सरवणन सुरेश गुजराती, छाया परोबोधन कापाधिया, भारती केश्वर वानी
				228 भाग	निजी	शुष्क	500	गोविन्द नारायणन कृपान अन्य अधिकार जंगल
				45 भाग	निजी	शुष्क	100	नानु, लक्ष्मण, लाहु और शान्ताशम नामदेव धालपे
				47 भाग	निजी	नम	8	धानगुनाबाई कामलु दालपे, गोविन्दा जाधव आशाबाई रामु चौधरी, जीजाबाई कासीनाथ बोनदरे, विमला कामलु दालपे
				48 भाग	निजी	शुष्क	100	राजेन्द्र सुरेश गुजराती भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग
				227ए भाग	निजी	नम	50	गविन्द नारायण कृपान भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग सं.3 सोसायटी सहायता केन्द्र आफ मरी
				6 भाग	निजी	शुष्क	200	गोविन्द नारायणन कृपान
				2ए भाग	निजी	नम	265	गोविन्द नारायणन कृपान
				8 भाग	निजी	शुष्क + गैर कृषि	1200	सोसायटी फार हेलपर आफ मदर मेरी अन्य अधिकार जंगल

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				227ए भाग	निजी	नम	23	गविन्द नरायण कृपान भारत सरकार / राष्ट्रीय राजमार्ग सं.3 सोसायटी सहायता केन्द्र आफ मरी
				228 भाग	निजी	शुष्क	14	सोसायटी फार हेलपर आफ मदर मेरी अन्य अधिकार जंगल
			(8) चैरपोली	54भाग	निजी	नम	100	सुकाबाई शान्ताराम, आन्नत वषणु भीरे, सुजाता सुनील निचिते, आशा, जगरुथी प्रकाश भीरे, लक्ष्मीबाई सुधाकरे, दामोदर, विठठल रागो भीरे, भीमाबाई, संजय, विलास, सतीश रमेश भीरे, अन्य अधिकार तागडी रुपये 200/-
				57 भाग	निजी	नम	50	संजय विठठल पांधारे भारत सरकार
				74 भाग	निजी	नम	900	के पी सन्सज प्रो हाजी कासीम हाजी सलेहा एम पटेल भारत सरकार
				102 भाग	निजी	शुष्क	50	अशोक पंडुरंगा विसहे, कासीनाथ फकीरा दिगोरे जंगल
				78 भाग	निजी	शुष्क	250	मारुती, कासीना आन्नत विनायक लक्ष्मण भेरे, मुकेश, परसाद विठठल भेरे, छगनुबाई, नितिन योगेश, सुधीर और गुलाब तुमाराम भीरे
				168 भाग	निजी	नम	400	गजानाने सतीश चन्द्रा मोहन शान्ताराम केलकर, सुभालक्ष्मी, किशोर, पंदमाकर नारायणन केलकर, सुजाता शेखर पंरुलेकर अन्य अधिकार टांनसेकसन कनवरटर आफ फरागमेशन एक्ट
				162 भाग	निजी	शुष्क	800	अरुण काचारु रोहे, शशीकान्त गजान्न पटेल अन्य अधिकार टांनसेकसन कनवरटर आफ फरागमेशन एक्ट
				169 भाग	निजी	शुष्क	400	काचरु गोविन्द भेरे, (कन्डिसन टेनुरे)
				170	निजी	शुष्क	950	सुकाबाई शान्ताराम, आन्नत वषणु भीरे, सुजाता सुनील निचिते, आशा, जगरुथी प्रकाश भीरे, अन्य अधिकार नई टेनुरे
				230ए भाग	निजी	शुष्क	1500	रूपाली चन्द्रमोहन राने (कन्डिसन टेनुरे)
				65 भाग	निजी	गैर कृषि	300	अरविन्दकुमार रासीकलाल शाह, सुनीता अरविन्द कुमार शाह, कमलता शिवलाल शाह, अरुण गुणवन्तीलाल शाह
				67 भाग	निजी	गैर कृषि	300	राजेश, द्वारकानाथ थाक्कर, मारुति सोनाजी सरोदे, चन्द्रभान दायनदेव सरोदे, रमेश जर्नाधन लीये, प्रसुराम शिवराम गागे, रामु तुकाराम पवार, जर्नाधन तुकाराम पवार, खाली जगह और सड़क भारत सरकार अन्य अधिकार कोनदाबाई दात्तु वासे, सुनीता सीताराम अंधेरे, बाबी मोरेश्वर पटेल
				230ए भाग	निजी	शुष्क	300	रूपाली चन्द्रमोहन राने (कन्डिसन टेनुरे)
				234 प्लांट संख्या 20	निजी	शुष्क	500	रामु शनजकर शेलार (कन्डिसन टेनुरे) अन्य अधिकार, सरकारी अधिकार पेड ओर बुशेस

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				234 प्लॉट संख्या 19	निजी	शुष्क	9600	शान्ताबाई लाहु लखन (कन्डिसन टेनुरे) अन्य अधिकार, सरकारी अधिकार पेड ओर बुशेस
			(9) वाशिद	193/5	निजी	नम	180	बलराम, लाधकु, गणपत, ए पी के तुलसाबाई गणपत, शेलार, लक्ष्मण, करुशान, संतोष देवु शेलार, दिपीका दात्ताराये शेलार, मीना शिवराम जाधव, मनजुलाबाई दात्ताराये सेलार, विठठल ए पी के लक्ष्मीबाई विठठल अन्य अधिकार भीमाबाई नरायणन भोईरे, ताराबाई आत्माराम भानकारे, हीरा देवु शेलार गीरजाबाई दावु सेलार
			(10) वाफे	85/3 भाग	निजी	शुष्क	450	लक्ष्मीबाई, किजय, किशोर रमेश केने कुसम विनोद चावन, अंजु प्रसान्त कुबेरा, सुवरना रमेश पटेल, चित्रा रघुनाथ मातरे
				51/3 भाग	निजी	गैर कृषि	15	नरायण चिन्तामनी सोमन, गोपाल नरायणन सीरके धर्मा नरायणन दिगोरे (सड़क) वेनुबाई रविन्दा दात्ताराये पटेल, पन्नालाल रामलाल कांतरी सरदा, किरण मधुकर पटेल, किशोर रघुनाथ अनामदे, मधुकर धर्माजी पटेल रासीधा निजामुद्दिन दिवान, पांडुरंगा दुर्गाजी जागरे (सड़क) रामदास तुकाराम देशमुख, सुशीला संतीश पाटकर संतोष शिवराम कुमावत जगदीश शंकर भावसर दलीप बुधाजी धामल पुष्पा मारुति चान्ने, पांडुरंगा गणपत तोसट
				88/3 भाग	निजी	शुष्क	100	अन्नदीबाई, दलीप गोविन्दा दामने, विमला सुरेश पटेल कमला नन्दन मातरे
				49/2 भाग	निजी	नम	700	अन्नदीबाई, दलीप गोविन्दा दामने, विमला सुरेश पटेल कमला नन्दन मातरे
				86/1 भाग	निजी	शुष्क	25	बुधीया पांगालु मालपेकर अन्य अधिकार लोन के आदीवासी सोसायटी रुपये 3500/- रुपये 20,000/-
				61 भाग	निजी	शुष्क + गैर कृषि	1400	सुर्याकान्त भोगीलाल शाह, नरायणन शांकरराव अधिकारी, वसन्त गणपत अधिकारी, गुरुनाथ भगवान, अनिता, बनीता हरी अधिकारी, मीराबाई हीरा भोईर, अनुसुईया हरी अधिकारी, सुभाष, सुमन, सकुन्तला बालु अधिकारी, आन्नद गणपत अधिकारी, संतीश गणपत अधिकारी, जितेन्द्र गणपत अधिकारी कोकन विकास महामनलाल अन्य अधिकार नई टेनुरे कन्डीसन 1 से 18 तक
			(11) कमलगांव	255 भाग	निजी	गैर कृषि	5500	सिधेश्वर फुड प्रा लि जंगल
				235ए भाग	निजी	नम	200	किशन्ना उनदरया वेकानदे कन्डीसनल टेनुरे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				236 भाग	निजी	नम	300	शंकर और कानदु भीवा वेकानदे
				378 भाग	निजी	नम	338	कान्धु भीवा वेकानदे अन्य अधिकार लोन रुपये 165.84 रामकरुशना आत्माराम पाटकेर
				380 भाग	निजी	नम + शुष्क	119	विठ्ठल रुधुनाथ भोईर, मंजुला राधो पटेल
				381 भाग	निजी	नम	164	लक्ष्मण गणपत वेकानदे
			(12) उम्बरखांड	40 भाग	निजी	शुष्क	750	राधेश्याम सवारमल अग्रवाल
				114 भाग	निजी	गैर कृषि	550	नियाज अहमद, मुरुयुजा हुसेन चौधरी
			(13) लाहे	327 भाग	निजी	शुष्क	600	विष्णु एन नासता अलीदे कनस्लटिंग इंजिनरिंग प्रा लि अन्य साईट लोन रुपये 404.20 आफ बी एस बिहारीलाल
				329	निजी	शुष्क	260	अनीता रामु सुमन गंगाबाई गानु गागेश अन्य अधिकार लोन रुपये 136.90 प्रतापसिंह बिहारीलाल
				330 भाग	निजी	शुष्क	30	गणपत ओर भास्कर चाहु कामबलेकर, कमला बाबन सारदे, बाराकी पोन्नम सारदे अन्य अधिकार लोन रुपये 136.90 प्रतापसिंह बिहारीलाल
				319 भाग	निजी	शुष्क	50	सकुबाई काचरु विसहे
				102 भाग	निजी	शुष्क	430	जनाबाई मालहाराव जाधव
				521ए भाग	निजी	नम	1500	बालु पांडुरंगा कामबलकेर, अन्य अधिकार लोन रुपये 589.00 बी एस भादे लोन रुपये 15000/- कानविनदे सोसायटी लोन काबजा हाकका 1/2 रुपये 25.52
				521ए भाग	निजी	नम	200	बालु पांडुरंगा कामबलकेर, अन्य अधिकार लोन रुपये 589.00 बी एस भादे लोन काबजा हाकका 1/2 रुपये 25.52
				328 भाग	निजी	शुष्क	250	कुन्दा कलपेश निमेश मनोज योजना विष्णु गागस प्रोटेस्टेड टेनानट कामलु लाधकु भोईर
				551 भाग	निजी	शुष्क & नम	500	अशोक स्नुभाबाई तुरकीया जयान्तिलाल कीमाजी सोने (सिमीत समय के लिए)
				344 भाग	निजी	गैर कृषि	500	सतीश कुमार श्रीनाथसिंह
				296 भाग	निजी	शुष्क	1270	सदाशिव दात्ताराय कादे, रजनी सदाशिव कादे, सुनीता विठ्ठल कादे, कल्पना वसन्त राउत, भारती जगदीश पटेल, विधा शशीकान्त वेकानदे, सीमा सुरेश पटेल, सुदाना विठ्ठल कादे अरपणा विठ्ठल कादे
				386 भाग	निजी	नम & शुष्क	100	लता गानया मुकने, गीरजी गणपत वाध मीनी कामलया अन्य अधिकार लोन रुपये 397.50 बी एस भादे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				556 ए भाग	निजी	एनए + नम	680	विष्णु एन नाथका असीदे कनकलालिंग इन्जिनियरिंग प्रा. वि. समु. भागा-भीरे अन्ध अधिकार लेन रुपये 12000.00 कानदीमदे सेवा सोसायटी
			(14) कसारा बुदरुक	59 भाग	निजी	शुष्क	600	भाउ मीदु कामदी मोगया बुधिया रामा कामदी तुलसी दामु तिमारा, बर्मा रागहो हीराबा हरीचन्द्र किशनलाल गुप्ता गोमा, नामो धर्मा धोबी, अमबी शकाय्या धापते, कासीबाई नवासु कातवर अन्ध अधिकार जंगल
				35 भाग	निजी	नम	520	सामनाथ गोविंदा जाधव अन्ध अधिकार लेन खसरा सोसायटी रुपये 3600/-
				3/3 भाग	निजी	गैर कृषि	2550	नोटानदास, गुलामलदास नामील खुबचानदानी बासुदेव नोटानकास खुबचानदानी राजकुमारी गुलमुखदास खुबचानदानी मनोज और गरीब दुनीचन्द कालानी
			(15) कसारा बुद	116 भाग	निजी	नम	500	कामलु सीदवा हरी मनमे कासीबाई ओनदाजी अगीवले
				12 भाग	निजी	गैर कृषि	700	चन्द्रकान्त शंकर भीदे समीत चन्द्रकान्ता भीदे समीत धाननजय आताबले
				42/1 भाग	निजी	नम	1570	ए सी महोमद अबदुल मलकाही
				42/2 भाग	निजी	नम	450	ए सी महोमद अबदुल मलकाही
				43/1 भाग	निजी	नम	590	कान्नु मालया मानगे
				34/3 भाग	निजी	शुष्क	400	कालु हरी मानग सिदया हरी मानगे, कासीबाई कोनदाजी अगीवले, इन्दुबाई सोनी ठाकरे (सीमित समय के लिए)
				34/4 भाग	निजी	शुष्क	850	सोन बुधिया सोमा पालो जुकरे बाभी कोन पारधी सुनी सोमा सातार प्रार्वती हरी मानगो (सीमित समय के लिए)
				137 भाग	निजी	एनए + शुष्क	34	सोन बुधिया सोमा पालो जुकरे बाभी कोन पारधी सुनी सोमा सातार प्रार्वती हरी मानगो (सीमित समय के लिए)
				33/2 भाग	निजी	शुष्क	34	समसद मामुद शारीफा मामुद कुदालकर, राईस अहमद मो गनी कुदालकर मोबीन मो गनी कुदालकर अबदुल मोसैम मो0 प्रदीप बानो मो0 गनी कुदालकर, मोडियन रेसमा बानो मो0 गनी कुदालकर
				133 भाग	निजी	शुष्क	14360	मानदु नामा बासमा रवजी नावसु बासमा, भाउ हेमा धर्मा बासमा, शान्ताबाई मंगसु भगत, शिवराम तोतये गीरजबाई पुना बासमे, जोईबाई चन्द्र कामदी जोईबाई मगदीर, अमलाबाई जानु केबहारी, चानमुनाबाई शानतु ठाकरे, भगालाबाई कासनाथ वाध सेवानताबाई चन्द्र अगीवले
				138 भाग	निजी	शुष्क	3750	बानगो जानगो मानगे
				169/ए/4	निजी	शुष्क	330	रामा कामलु ठाकरे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				170/ए	निजी	शुष्क	411	मंगलया गोमा भगत, राखमीबाई गोमा भगत
				169/ए/1 भाग	निजी	शुष्क	195	देवु भावदया कामदी
				168/1/ए भाग	निजी	शुष्क	400	भीका कालु मांगे
				168/1/बी भाग	निजी	शुष्क	950	धर्मा रागहो कामदी
				69/2 भाग	निजी	शुष्क	100	सोनीबाइ अमबो मानगे
				179 भाग	निजी	नम	1500	भीका कालु मांगे
			(16) पुधे	18 भाग	निजी	नम + शुष्क	800	मानसु पारसु वारली, आन्तदीबाई पांडु वरली, जनकीबाई कुशा गुलुम, विमला, विष्णु और आशा लक्ष्मण हरद, ताई लाशा फुफने, रागी लाधकु देसाले अन्य अधिकार अधिकार बम्बई मंमाण पाईप लाईन 3330 वर्ग मी
				19/1 भाग	निजी	नम	170	विलास, अनानदी, मुनजुला, नामदेव निचेते, (नई समय) गणपत, बालकरुशान, पुनदलीक, निराबाई, राखामाबाई हरी निचेते, सालुबाई यश्वन्त गोले, सुलोचना, रंजना, अंजना, सतीश, रेखा रागो निचेते, (नई समय) नरायणन बापु मारुती भीवा निचेते भीमाबाई गोव
				20 भाग	निजी	नम	510	विलास, अनानदी, मुनजुला, नामदेव निचेते, (नई समय) गणपत, बालकरुशान, पुनदलीक, निराबाई, राखामाबाई हरी निचेते, सालुबाई यश्वन्त गोले, सुलोचना, रंजना, अंजना, सन्तोष, रेखा रागो निचेते, राजेश विनोद गणपत निचिते करुपा अमील गोदविनदे, कविता अरुण वारानजुले प्रमीला गणपत निचिते, नई शर्ते नारायण बापु मारुति सवीत्रीबा बीवी निचिते, भीमाबाई, गोविन्द बापु, प्रमोद शान्तराम निचिते, अलका भोनदवे, संगीता यशवन्त लोनी नई शर्ते
				74/2 भाग	निजी	शुष्क	1890	सुनीता दुनधराम निचेते, दुनधराम गोसावी निचिते अन्य अधिकार अधिकार बीपीसीएल बम्बई मंमाण पाईप लाईन
				80/1 भाग	निजी	शुष्क	1120	दुनदाराम गोसावी निचिते
				97 भाग	निजी	शुष्क	530	पो अमर पीनजोमल आसरानी वेसटेकस कोराम ईन्डिटरज अन्य अधिकार अधिकार बीपीसीएल बम्बई मंमाण पाईप लाईन बदली कनवरशेशन आफ टेनसेय एक्ट
				73/2	निजी	शुष्क	1500	दुनदाराम और जगननाथ गोसावी निचिते, अन्य अधिकार अधिकार प्रयोग बीपीसीएल बम्बई मंमाण पाईपलाईन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				72/1 भाग	निजी	शुष्क	1490	प्रमील विश्वनाथ मेहताजी (शर्त लागू)
				84/1 भाग	निजी	शुष्क	200	पवनकुमार बुधराम गोयल, जंगल निदेशक परतीमा नन्दलाल ठाकुर मैसर्स पारस पलासटोपेक्स प्रा लि जंगल निदेशक चन्द्रकान्त रामजी अनाम मैसर्स पारस मुलडिंग प्रा लि जंगल निदेशक नन्दलाल माधवनी ठाकुर मैसर्स पारस पोसियसे प्रा लि जंगल खाली जगह
				85/8 भाग	निजी	शुष्क	1100	प्रमीलदेवी काईलसचन्द अग्रवाल, अन्य अधिकार अधिकार प्रयोग बीपीसीएल बम्बई मंनमाण पाईप लाईन जंगल
				73/1 भाग	निजी	गैर कृषि	1500	अबदुल रहमान एच लाकडवाल, हमीदा रहमान लाकडवाल- अन्य अधिकार कन्वरशेन आफ एनर्गे आर्डर
				80/14/1 भाग	निजी	गैर कृषि	1650	अटर्गव ईडिस्ट्रज प्रा लि खाली जगह आन्तिक संडक
				84/3 भाग	निजी	गैर कृषि	4300	चन्द्रकान्त आसीनाथ पवार अन्य अधिकार जंगल खाली जगह एवम कन्टोल लाईन सडक
				18 भाग	निजी	नम	100	मानसु पारसु वारली, आनंदीवाई पांडु वरली, जनकीबाई कुशा गुलुम, विमला विष्णु और आशा लक्ष्मण हरद, ताई लाशा फुफने, रागी लाधकु देसाले अन्य अधिकार अधिकार बम्बई ममाण पाईप लाईन 333 वर्गमी
				19/1 भाग	निजी	नम	100	विलास, आनंदी, मुन्जुला नामदेव निचिते (नई शर्तें) बालाकृष्णन, पंडलिक, मीराबाई हरी निचिते, शलुबाई यशवत गोले, राखामबाई हरी निचिते, सुलोचना, रंजना, अंजना सतीश रेखा सगो निचिते, राजेश विनोद गणपत निचिते, करुणा अनिल गोदविन्दे, कविता अरुण वरांजुला, प्रमोला गणपत निचिते(नई शर्तें) नारायण बापु मारुति सवीत्रीबा बीबी निचिते, भीमाबाई, गोविन्द बापु, प्रमोद शान्ताराम निचिते, अलका भोजनदे, संगीता यशवन्त लोनी नई शर्तें जंगल
				19/2 भाग	निजी	शुष्क	200	विलास, आनंदी, मुन्जुला नामदेव निचिते अन्य अधिकार बीपीसीएल मुम्बई ममाण पाईप लाईन वर्ग भी का अधिकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				20 भाग	निजी	नम	59	विलास, आनंदी, मुनजुला नामदेव निचिते (नई शर्तें) बालाकृष्णन, पंडलिक, मीराबाई हरी निचिते , शलुबाई यशवत गोले, राखामबाई हरी निचिते, सुलोचना, रंजना, अंजना सतीश रेखा रागो निचिते, राजेश विनोद गणपत निचिते, करुपा अनिल गोदविनदे, कविता अरुण वरांजुला, प्रमाला गणपत निचिते(नई शर्तें) नारायण बापु मारुति सवीत्रीबा बीवी निचिते, भीमाबाई, गोविन्द बापु, प्रमोद शान्तराम निचिते, अलका भोनदवे, संगीता यशवन्त लोनी नई शर्तें
				73/1 भाग	निजी	शुष्क	100	माधव रामाचन्द्र मात्रे, अरुण, नवनीत, विरेन्द्र शिवलाल भुनुशाली, जुसमीता अजीत भुनुशाली, कामीनि करुशना भुनुशाली, गीता विभव भुनुशाली, अन्य अधिकार बीपीसीएल के अधिकार मंमाण पाईप लाईन 1350 वर्ग मी अबदुल रेहेमान एच लाकदवाल हमीदा रेहेमान लाकदवाल अन्य अधिकार के बदले एन ए
				72/1 भाग	निजी	शुष्क	100	प्रमीला विश्वनाथ मेबहानी (शर्तें लागू)
				74/2 भाग	निजी	शुष्क + गैर कृषि	150	सुनीता दुनधराम निचिते, अन्य अधिकार अधिकार बीपीसीएल बम्बई मंमाण पाईप लाईन दुनधराम गोसावी निचिते खाली जगह और शर्तें
				80/13 भाग	निजी	शुष्क	1500	निदेशक अमर पीनजामल असारानी मैसर्स पीनजामल पवार प्रा लि प्रो मुदलियार हरजुनदास पारसवानी मैसर्स आनंद आर्ट ईलकट्रोनिक्स, जोतवानी मैसर्स सर्पटन इन्जिरिंग प्रा लि
				80/14/2 भाग	निजी	शुष्क	600	दुंदाराम गासवी निचिते, जगननाथ गोसवी निचिते
				80/14/1 भाग	निजी	गैर कृषि	600	अटगांव ईडिस्ट्रिज प्रा लि खाली जगह आन्तिक संडक
				80/1 भाग	निजी	शुष्क	600	दुंदाराम गासवी निचिते,
				83ए/1 भाग	निजी	गैर कृषि	200	जंगल , अन्य अधिकार बीपीसीएल के अधिकार बम्बई मंमाण पाईपलाईन, मिडलेड स्टील प्रोसस प्रा लि खाली जगह चिनाई
				83ए/2 भाग	निजी	गैर कृषि	3600	जंगल , अन्य अधिकार बीपीसीएल के अधिकार बम्बई मंमाण पाईपलाईन, मिडलेड स्टील प्रोसस प्रा लि खाली जगह चिनाई

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				83ए/3 भाग	निजी	गैर कृषि	1162	अजय जोशी और सिबु कुरुप परीसम लाईप साईस लि अन्य अधिकार बीपीसीएल के अधिकार बम्बई मंमाण पाईपलाईन, एच यु एफ करुशना वालकु निचिते अन्य अधिकार बीपीसीएल के अधिकार बम्बई मंमाण पाईपलाईन,
				97भाग	निजी	नम	163	अमर पिनजोमल आसारानी मैसर्स वेस्ट कोराम इंडिस्ट्रज अन्य अधिकार स्पलाई को बदलना शर्तें एक्ट अधिकार का प्रयोग बीपीसीएल बम्बई मंमाण पाईप लाईन
			(17) गोलभन	22 भाग	निजी	नम + शुष्क	200	ईकनाथ शंकर गारते
				33 भाग	निजी	नम + शुष्क	1500	रघुनाथ बापु, पंडीत, गलाव, चन्द्रभागा रामचन्द्रा गारत
				37भाग	निजी	शुष्क	600	विठ्ठल, दात्ताराय कासीनाथ गारत
				45भाग	निजी	नम	40	गोपाल, बालु शंकर उमभरगोदे, शकुबाई हेमा विदे, गजाबाई मंगलु गारत, तुलसीबाई शंकर गारत
			(18) वेरसकोल	66/3 भाग	निजी	नम	130	गोपाल, बालु शंकर उमभरगोदे, शकुबाई हेमा विदे, गजाबाई मंगलु गारत, तुलसीबाई शंकर उमभरगोदे
			(19) खडी	43/2 भाग	निजी	गैर कृषि	1900	ईसमाईल गुलाम बानसीमीया, उमसान ईसमाईल पटेल, अबुबाकर अबदुल रहीम शलेश, नफीस अबदुल कादर शिपरा, ईकनाथ चानवु जाधव, गेरागे पाल, अन्य अधिकार लोन रुपये 8800000 महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड
				27 भाग	निजी	गैर कृषि	600	अमीता एस सेटी अन्य अधिकार अनारक्षित माईनर साधारण जुर्माना रुपये 344000/-
				21/1 भाग	निजी	गैर कृषि	1000	मुरतुजा फकीर शाईख, रुशतम फकीर शाईख, अल्लाहुदिन फकीर शाईख
				10/3 भाग	निजी	गैर कृषि	200	असरफ एम के हाजी सी पी हमीद रासी एम के हाजी सी पी हमीद
				10/3 भाग	निजी	गैर कृषि	150	असरफ एम के हाजी सी पी हमीद रासी एम के हाजी सी पी हमीद
			(20) आसनगांव	9/1 भाग	निजी	नम	40	लीलाबाई केशव पवार, अन्य अधिकार लोन के आसनगांव सोसायटी रुपये 700/- वसन्त हीराचन्दा सन्तोष, चन्द्रभागा करुशन चांदे, जीजाबाई तुकाराम मोगरे, विजुबाई गंगाराम निचिते, बाबीबाई रामाचन्द्रा गारत

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				10/ए/1 भाग	निजी	नम	270	अरुण गानु वेकानदे, विठोबाई वामन दामने, वरुशाली तुसार विष्णुराव, प्रतीक्षा बालुकुरुशन चानदे, चानगुना गानु वेकानदे मंजुला और करुशान, कविता सदाशिव वेकानदे, हरीभाऊ लहु वेकानदे, संगीता शिवाजी चानदे, सविता अंकुश पटेल, अन्य अधिकार बीपीसीएल मुम्बई के अधिकार मंमाण पाईपलाईन बदली और भेजन का अधिकार एक्ट
				33 भाग	निजी	नम	90	उमा मेहन्द्र अग्रवाल, I, अन्य अधिकार बीपीसीएल मुम्बई के अधिकार मंमाण पाईपलाईन, लाहु मारुति सवित्री दाजी चन्दे, अर्चना, दर्शना, आशा, योगेश, नितेश रामाचन्द्र चांदे, अन्य अधिकार बीपीसीएल मुम्बई के अधिकार मंमाण पाईपलाईन, लोन 400/- शाहपुर आदीवासी सेवा सरकारी सोसायटी
				35/2 भाग	निजी	नम	30	चन्द्रभागा, भास्कर पुंदलीक राकमाबाई बाबु चांदे अन्य अधिकार दुंदीबाई गणपत काकिशौर
				35/3 भाग	निजी	नम	560	बुध्वाजी महादु चांदे
				35/4 भाग	निजी	नम	70	लाहु मारुति, सवितरी दाजी चांदे, अर्चना, दर्शना, आशा, योगेश, नितेश रामाचन्द्रा चोदे, गार्डियन अर्चना रामचन्द्रा चोदे, अन्य अधिकार बीपीसीएल मुम्बई के अधिकार मंमाण पाईपलाईन, लोन रुपये 1800/- असगांव सोसायटी
				43/2	निजी	शुष्क + पोथारबा	140	गीतादेवी अर्जुन चौधरी, विजय दात्ताराम राने (सिमित समय के लिए) अन्य अधिकार शर्तें मुटाटिन सर्वे संख्या 43/1 के अनुसार
				43/4 भाग	निजी	नम	50	शंकर कुशाबा देशमुख (सिमित समय के लिए) अन्य अधिकार शर्तें मुटाटिन सर्वे संख्या 18 के अनुसार
				43/4 भाग	निजी	नम	100	शंकर कुशाबा देशमुख (सिमित समय के लिए) अन्य अधिकार शर्तें मुटाटिन सर्वे संख्या 18 के अनुसार
				165/ए/1 भाग	निजी	गैर कृषि	530	नरेश एवम राजेश रामभारोसे शर्मा
				68/1 भाग	निजी	शुष्क	10	ललीत रतनचन्द चांदे अन्य अधिकार जंगल इंदरु राईसिहनी दागारभाई बनारसीदास पटेल के लिए रेनु रेशु डिवेलपर अन्य अधिकार जंगल के
				37/ए/7 भाग	निजी	गैर कृषि+नम	860	महेन्द्र मंगीलाल अग्रवाल अन्य अधिकार बीपीसीएल मुम्बई के अधिकार मंमाण पाईपलाईन, भास्कर पुंदलीक, राखमबाई बाबु चांदे अन्य अधिकार दुंदीबाई गणपत काकोसे अधिकार प्रयोग बीपीसीएल मुम्बई के अधिकार मंमाण पाईपलाईन,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				43/7 भाग	निजी	नम	190	सुलोजना गुरुनाथ गोरले
				38/2 भाग	निजी	नम	220	रुकम्मा कन्स्ट्रक्शन और रिसोर्ट ओर हरिश रामचन्द्र सोभानी, अन्य अधिकार बीपीसीएल मुम्बई के अधिकार मंमाण पाईपलाइन, लोन रुपये 2000/- शाहपुर आदिवासी सोसायटी
				55	निजी	शुष्क	450	भालचन्द्रश दोनदु जाधव
				40/2 भाग	निजी	गैर कृषि	250	राधेश्याम सवारमल अग्रवाल अन्य अधिकार बीपीसीएल मुम्बई के अधिकार मंमाण पाईपलाइन,
				68/5 भाग	निजी	गैर कृषि	130	संत बाबा नरेन्द्र सिंहनी के लिए गुरुद्वारा गुपतसर शाहेव ट्रस्ट, ईन्दु राईसिंहनी धमाबाई बनारसीदास पटेल मैसर्स रेनु रासु डिवेलपर ईन्दु राईसिंहनी धर्माबाई बनारसीदास पटेल (सड़क)
				68/3 भाग	निजी	गैर कृषि	1850	संत बाबा नरेन्द्र सिंहनी के लिए गुरुद्वारा गुपतसर शाहेव ट्रस्ट, ईन्दु राईसिंहनी धमाबाई बनारसीदास पटेल मैसर्स रेनु रासु डिवेलपर ईन्दु राईसिंहनी धर्माबाई बनारसीदास पटेल (सड़क)
				81/९/2/1 भाग	निजी	गैर कृषि	860	ईन्दु राईसिंहनी धमाबाई बनारसीदास पटेल मैसर्स रेनु रासु डिवेलपर
				83/1 भाग	निजी	गैर कृषि	880	ईन्दु राईसिंहनी धमाबाई बनारसीदास पटेल मैसर्स रेनु रासु डिवेलपर अन्य अधिकार लोन के लिए स्टाम ड्युटी रुपये 3392
				92/1 भाग	निजी	गैर कृषि	820	रामप्रकाश माथुरदास डिगरा मैसर्स डिगरा होटल प्रा लि
				65/1 ए भाग	निजी	शुष्क	150	रामाचन्द्रा शिवराम भुनदे, कालु पादु तालपदे, सुरेश तुकाराम दिगहे, दावला शंकर तालपदे, नामदेव हरी तोकाले, ईकनाथ पुजा नादेकर, केरु राधो भोसले, उत्तम विठोबा भोसले, संतोष पांडुरंगा भागरे अन्य अधिकार बीपीसीएल बम्बई मानमद पाईप लाईन
				65/2 भाग	निजी	नम	600	ललीत रतनचन्द चादे अन्य अधिकार फोरसट
				65/2 भाग	निजी	शुष्क	900	ललीत रतनचन्द चादे अन्य अधिकार फोरसट
				63 ए भाग	निजी	नम	1486	राधेश्याम सवारमल अग्रवाल
				59/3 ए भाग	निजी	शुष्क	1100	धोन्दु रामा चानदे अन्य अधिकार लोन शाहपुर आदिवासी सोसायटी रुपये 1200/- अन्य अधिकार बीपीसीएल बम्बई मानमद पाईप लाईन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				59/4ए भाग	निजी	शुष्क	273	बाबी अमबो चानदे, शान्ताबाई अमबो चानदे, अनुसुईया काचरु चानदे, मधुकर, रविन्दर गणपत भोरे, कान्ता बाबन गारत, कामाबाई तुकाराम सिन्दे, विठ्या परतिकशाह, कुनाल, सागर वसन्त चानदे
				56/6ए भाग	निजी	नम	600	दातु गोपाल भागरे, कासीनन्दा रामभाउ, निवसुथी विठल गोदे, रामाभाउ मंनजी भगत, कालु दोनदु दिगहे, सवालराम कानदु साहाले, मारुति मंगल गोदे, सोमा भोरु कीतादे, पांडुरंगा कालु आगान, नामदेव पुंजा निसारदे, किशन मोहन जांगले, बाहीरु तुकाराम साबले, सोमा अमबो गमभीर, चान्दु मांडु मुनदहे, शकाराम सावलाराम दामासे, महादेव दागदु दामसे
				56/5ए भाग	निजी	नम	300	सुलोचना, रविन्द्रा कासीनाथ चानदे, रुपाली, विबहाव, नामरता रमेश चानदे, विनीता विजय भीरे, पुर्णिमा शदानंद गादगे
				56/4भाग	निजी	शुष्क	150	भालचन्द्रा दोनदु जाधव
				80/1 भाग	निजी	नम	250	शान्ता बाबा नरेन्द्रा सिंह फार गुरुदुवारा गुपतासर शाहब ट्रस्ट, ईन्दु रायसिंह धाराबाई वसंरासीदास पटेल फार मैसस रेनु रासु डिवेलपर (सड़क)
				80/3 भाग	निजी	शुष्क	27	शान्ता बाबा नरेन्द्रा सिंह फार गुरुदुवारा गुपतासर शाहब ट्रस्ट, ईन्दु रायसिंह धाराबाई वसंरासीदास पटेल फार मैसस रेनु रासु डिवेलपर (सड़क)
				88/1 भाग	निजी	शुष्क	200	सकरी, छीती और मांदा अर्जुन विबादे
				89/ए भाग	निजी	शुष्क	150	नरेश विठल पटेल
			(21) सारमाल	277ए भाग	निजी	शुष्क	280	रामचन्द्रा, पांडुरंगा, उत्तम, गणेश, शकवर प्रशराम शीलार, मान्नुबाई भागु कीरपन, हरी कान्दु शीलार, जिन्दल आयरन और स्टील कम्पनी लि. अन्य राईट लोन आफ रुपये 799.00 आफ मोतीबाई भीकु गुजार दिनांक 15/12/1969, राईट टु युज आफ बीपीसीएल आफ बम्बई मानमद पाईप लाईन
				277बी भाग	निजी	शुष्क	230	रामचन्द्रा, पांडुरंगा, उत्तम, गणेश, शकवर प्रशराम शीलार, मान्नुबाई भागु कीरपन, हरी कान्दु शीलार, जिन्दल आयरन और स्टील कम्पनी लि. अन्य राईट लोन आफ रुपये 799.00 आफ मोतीबाई भीकु गुजार दिनांक 15/12/1969, राईट टु युज आफ बीपीसीएल आफ बम्बई मानमद पाईप लाईन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				283 भाग	निजी	गैर कृषि	789	बालू, लकड़ान, सुनीता सान्तासम चानदे रविन्द्रा, मनजुला, भारकर अलका मितिन बन्धकान्ता चानदे
				272 भाग	निजी	शुष्क	300	जिन्दल स्टील और एलोयस सि.
				280 भाग	निजी	शुष्क+गैर कृषि	228	किशया बन्तु कपड़े अन्य अधिकार लो सीतासम बासुदेव जोसा रुपये 580/- और लोक बी डी मादगील रुपये 1300/- शतसुगनासुया प्रसादसिंह अन्य अधिकार लोन सीतासम बासुदेव जोसा रुपये 580/- और लोन बी डी मादगील रुपये 1300/- मधुबन केडोरनद सदाशिव प्रसाद प्रभु राजपुरा मधु सीतासम राजपुरा अन्य अधिकार महाराष्ट्र राज्य महामण्डल रुपये 7,50,000/- अर्जुन और बासुदेव सुदीपानजी बोलकर अन्य अधिकार महाराष्ट्र राज्य महामण्डल रुपये 7,50,000/- प्रकाश नकुल पटेल
				277 भाग	निजी	शुष्क	188	समबन्ध, पांडुरंगा, उत्तम, गणेश, शकवर प्रसन्न सीतार, मानुबाई बागु कीरपन, हरी कान्नु सीतार, जिन्दल आवरण और स्टील कम्पनी लि. अन्य पाईट लोन आक रुपये 799.00 आफ मोतीबाई भीकु गुज्जर दिनांक 15/12/1989, राईट टु युज आफ बीपीसीएल आफ बम्बई मानमद पाईप लाईन
		(22) वेल्होली		200/2 भाग	निजी	गैर कृषि	1750	बहेनर कोसाजी खाह, प्रमोदकुमार भास्तर सिंह
				202/8 भाग	निजी	एन ए	550	निदेशक भारत भुषण अग्रवाल फार मैसज लादम इन्वेस्ट एवम फाईनेस को प्रा लि
				134/1 भाग	निजी	शुष्क	55	शंकर प्रसाद सुकहलाल सिंह, अदीनास शंकर प्रसाद सिंह
				134/2 भाग	निजी	नम	1209	शंकर प्रसाद सुकहलाल सिंह, अदीनास शंकर प्रसाद सिंह
				134/4	निजी	शुष्क	600	शंकर प्रसाद सुकहलाल सिंह, अदीनास शंकर प्रसाद सिंह
				200/7 भाग	निजी	शुष्क	450	तोसाकुमार हसीभाउ पुकत
				201/1/ए	निजी	शुष्क	3800	निदेशक भारत भुषण अग्रवाल फार मैसज लादम इन्वेस्ट एवम फाईनेस को प्रा लि

[का. सं. भारतसमाप्ती/ओटी-1/1013/2/2003]

सु. नरेन्द्रा, निदेशक

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th December, 2008

S.O. 2883(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O. 2135 (E), dated the 17th December, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (four laning), maintenance, management and operation of National Highway No.3, including the bypass, on the stretch of land from km. 470.800 to km 539.000 (Vadape- Gonde Section) in Thane District in the State of Maharashtra;

And whereas the substance of the said notification has been published in “The times of India”, and “Maharashtra Times”, both dated the 30th January, 2008, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub – section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted his report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of Sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the proposed right of way of National Highways No.3 on the stretches of land from Km. 470.000 to Km.539.000 (Vadape - Gonde Section) in the State of Maharashtra.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey / Gut number	Type of land	Nature of land	Area (in square metres)	Names of the land owners/interested persons
1	Thane	1. Bhiwandi	(1) Wadhuli	18/4	Private	Dry	50	Suresh Babu Shinde
				18/5	Private	Dry	230	Nau Ambo Jadhav, Bha. Ambo Jadhav, Rajaram Ambo Jadhav, Jija Vitthal Patil, Laxman Bha. Jadhav, Bharat Bha. Jadhav, Shatrughna Bha. Jadhav, Vanita Ekanath Shelar, Bharati Devidas Shelar, Anjana Balaram Banger, Other Rights-Loan of Padgha Soc. of Rs. 4200/-
				19/1 pt	Private	Wet	200	Keshav Babu Bhoir Other Rights- Loan Of Padgha Soc. Of Rs.30,000/- & 500000/-
				20/1	Private	Dry	130	Pratapbhai M. Thakker
				20/2	Private	Wet	100	Kanha, Shanker, Dattu and Damodar Kondu Bhoire, Narayan, Nandev, Vaman, Sitaram and Laxmibai Lukha Bhoire Other right- Vitthalai Raghunath, Bhimabai Kaluram, Godabai Vasant, Bhagubai Gajanan
				23/2 pt	Private	Wet	30	Tukaram Mali, Keshav Babu Bhoir Other Rights-Loan Of Padgha Soc. Of Rs. 26000/- & 300000/-
				24/2 pt	Private	Dry	12	Ramaniklal Narayan Patel, Bharat Ramaniklal Patel, Kasturben Ramaniklal Patel
				24 pt	Private	Dry	345	Ad. Yamin Ali Shaikh, Kasturben Kapurchand Gogarani, Champaben Jainilal Jakhardia,
				26/12 pt	Private	Wet	25	Ambo, Vishnu and Jankibai Posha Shelar
				26/13	Private	Wet	30	Ambo, Vishnu and Jankibai Posha Shelar
				26/14 pt	Private	Wet	15	Keshav Babu Bhoire Other Right Loan Of Padgha Soc. Of Rs. 500000/- & 300000/-
				49/3 pt	Private	Dry	65	Manik, Vishnu, Gurunath and Changuna Bhurya Katkari, Sakharam Lahu Katkari, Tulsi Bai Govind Katkari, Other right Mangalabai Soma Vaghe, Loan of Padagha Society of Rs. 50,000/-
				48/3 pt	Private	Wet	15	Ramaniklal Narayan Patel, Bharat Ramaniklal Patel, Kasturben Ramaniklal Patel, Keshav Babu Bhoire Other Right Loan Of Padgha Soc. of Rs. 500000/- & 300000/-
				61/1 pt	Private	Dry	145	Balu Shiva Maje, Maruti Raghunath Mate
				81/2 Pt	Private	Wet	30	Shaipali Shankar Bhoir
				77/1 Pt	Private	Dry & NA	200	P.Vargis Phillip, Other Rights -Loan of Rs. 3703.00 & Loan of Rs. 27,935/- of Provident Fund & ESIS Nirmala, Harichandra, Vilas, Madan and Shubhash Shankar Shastri, Babi Gurunath Tarate,
				1/3 Pt	Private	Wet	200	Rajesh Jannadas Thakker
				15/1	Private	Dry	300	Nau Ambo Jadhav, Rajaram Ambo Jadhav, Jija Vitthal Patil, Laxman Bha. Jadhav, Bharat Bha. Jadhav, Shatrughna Bha. Jadhav, Vanita Eknath Shelar, Bharati Devidas Shelar, Anjana Balaram Bangara Other rights-Loan of Padagha Society of Rs.4200/-
				15/2 Pt	Private	Dry	100	Ankush, Baban, Motiram, Madhukar, Balaram, Tai, Laxmi Babu Jadhav, Alpesh, Akshay, Priyanka and Jaishri Jayram Jadhav
				15/5	Private	Wet	400	Ananta Haribhau Patil, Asha Ananta Patil
				15/9 Pt	Private	Dry	50	Ankush, Babana, Motiram, Madhukar, Balaram, Tai, Laxmi Babu Jadhav, Alpesh, Akshay, Priyanka and Jaishri Jairam Jadhav
				19/2 Pt	Private	Wet	800	Tukaram Balu Bhoir, Sonibai Shankar Jadhav, Yemu Budha Gaikar, Padhi Dattu Desai, Babi kaluram Pitambare, Other rights-Loan of Padagha Society of Rs.10,000/- & Rs.1,50,000/-
				19/3 Pt	Private	Dry	100	Dunda Gopal Gaikar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				19/4 Pt	Private	Wet	280	Meena, Bharudas, Shrikant Ramchandra Gaikar, Alka Rajesh Kathole Other rights- Loan of Padagha Society of Rs. 35,000/- & Rs.2,00,000/-
				19/5 Pt	Private	Dry	200	Kaluram Lahu Bhoir, Other Rights- Loan of Padagha Society of Rs. 6,000/- & Rs.1,00,000/- Pandurang, Eknath Vitthal Bhoir, Kantabai Shantaram Bhoir, Other Rights- Loan of Padagha Society of Rs. 15,000/- & Rs.2,51,000/-
				19/6 Pt	Private	Dry	50	Keshav Babu Bhoir Other rights-Loan of Padagha Society of Rs.30,000/- & 3,00,000/-
				19/8/2 Pt	Private	Non-Agricultural	50	Rajenderkaur, Manpritsingh, Meherabansingh, Haraditsingh Malhotra
				19/9 Pt	Private	Wet	470	Manprit, Meherabansingh Haraditsingh Malhotra
				19/11 Pt	Private	Wet+Dry	100	Budhya and Janu Chango Bhoir Other rights- Loan of Padagha Society of Rs.50,000/-
				19/12 pt	Private	Wet	300	Keshav Babu Bhoir Other rights- Loan of Padagha Society of Rs.5,00,000/- & Rs.3,00,000/-
				30 Pt	Private	Non-Agricultural	20	Javerchand Liladhar Shah, Tarachand Hiraji Shah, Tarachand Shamji Savla.
				57/11 pt	Private	Non-Agricultural	1630	Sumitradevi Alarchand Uppal, Surjitkour Jognidersingh Sablok
				57/12 pt	Private	Dry	3	Ejaz Abdul Atif Jairumi
				56 pt	Private	Wet	1100	Sanjay and Deepak Makhania Gupta
				57/3 pt	Private	Dry	2000	The Bombay Transport Co.op Consumer Society viz. President S. Daljitsing Bal, Mohammed Rais Jais Mohammed Choudhari, (Lake)
				87 pt	Private	Wet	400	Madhukar Ganapat Tare, Devkibai Damu Patil
				60/4 pt	Private	Wet	43	Balu Shiva Mate
				60/1 pt	Private	Dry	4200	Shepali Shankar Bhoir, Other Rights- Transaction in Contravention of fragmentation Act Smita, Amruta, Puja and Hardik Suresh Sherekar
				73/4 pt	Private	Non-Agricultural	250	Mohammed Hasan Malbari, Sayyed Kamruddin Naruddin Kadri Other rights-Right to use of Santosh Pawar on Behalf of BPCL for 36 Years & 8 months.
		(2) Padagha		110/1 pt	Private	Wet	40	Shantilal Kundanmal Mahajan Porval. Other Rights Prohibition to transfer of right in case no. 333/98 in civil court
				112/1 pt	Private	Wet	20	Shantilal Kundanmal Mahajan Porval, Gulam Husene Shaoukatali Khan, Riyaz Ahmed Mustakim Other Rights (Transactions in Contravention of Fragmentation Act)
				107/2 pt	Private	Wet	650	Ramchandra Mhadu Bhangre. Other right Talevati Society Of Rs.1,55,000/-
				69/1/1 pt	Private	Wet	20	Ishvarsing, Sanmukhsing, Pratima Bharat Shaha, Bipin Keshavlal Dhariya, Zaverchand Jetha Shaha
				82/1 pt	Private	Non-Agricultural	230	Chandrakant Ganpat Patil, Other right Shri Chardrakant Ganpat Patil, Gardian Smt. Pooja Constituted of Attorney of Chandrakant Ganpat Patil.
				167 pt	Private	Dry	1400	Jitendra and Manoj Nemichand Shaha, Sushilaben Jitendra Shaha, Prakash Shrikrushna Dhamanker, Shantabai Shrikrushna Dhamanker, Savitri Prabhaker Dhamanker.
				23 pt	Private	Wet	120	Jitendra and Manoj Nemichand Shaha
				15/3 pt	Private	Non-Agricultural	700	Rafik Akbar Kaskar, Hamid Baba Balere, Other Rights-Right Bank Bhatasa Canal, Rafik Akbar Kaskar, Md. Shafi Ayub Lakadwala, Md. Shafi Lakadwala, Sabir Ahmed Lakadwala, Mohammad Arshad Ayub Lakadwala, Aishabi Ayub Lakadwala. Other right - Sanekh Jais Mohammed Khan, Khairullah Dildar Khan, Abdul Kalam Mohammed Jikri Khan, Mohammed Mustafa Barsa Nimnohar, Mohammed Rafik Ataullah Choudhari, Rafiullah Mohammed Bashir Khan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				167/1 pt	Private	Wet + Non-Agricultural	4200	Ashok Sodashev Karadkar, Sandeep Ganesh Karadkar, Nitin Vasant Karadkar, Vidya Ganesh Karadkar, Lohar Sutar Samaj Trustee Ashok Moreashwar Jadhav, Damodar Gajanan Dalvi, Rajesh Ramchandra Somvanshi, Ajit Lakshman Ghone, Vithhal Shankar Chavare, Nikanth Lakshman Ghone, Praful M. Shaha, For M/S Rahul Enterprises.
				88/3 pt	Private	Non-Agricultural	500	Budhaji Mahadu Raut, Dyaksheshwar Budhaji Raut, Rajendra Pandharinath Khismatrao, Chandrakant Trimbak Khismatrao, Shailesh, Pallavi, Shital Sharad Bidvi, for self & Guardian of Shailesh & Pallavi Sulebha Sunil Bidvi, Dinesh Balkrishna Bidvi, Ashok Bapu Kondalekar, Shankar Dundha Ghodvande, Ragho Kathode Padawak, Rupesh Sundar Patil, Rajendra Dashrath Jadhav, Vijay Ram Dulare Gour, Shakil Ahmed Bahejullah Salim, Other Rights Maimen Nisha Shahamullah Harvaj, Ramoji Songur Choudhari, Jamal Ahmed Jainurak Shaikh, Mubarak Hussain Asman Ali Khan, Safaati Md. Hadis Ali Khan, Md. Yusuf Arifullah Khan, Samirullah Shakuliah Choudhari, Nasibullah Abdul Rafik Choudhari, Basidullah Abdul Rafik Choudhari.
				80/7/1 pt	Private	Non-Agricultural	1720	Ramesh Dattatray Tamboli, Vijay Hasmahu Bidvi, Manzur Mohammed Amin Patel, Rehana Manzur Patel, Maksud Mohammed Amin Patel, Asif Gulam Ali Farid, Shahin Asif Farid, Ruksana Mohammed Haridef Chougale, Sima Musabbir Maslim, Majid Ferul Khot, Other Right Sana Majid Khot.
				20/3 pt	Private	Non-Agricultural	710	Amin Ahmed Nandotya, Salim Aija Nandotya, Samir Imtiyaz Nandotya, Fiaz Habib Patel.
				71/C	Private	Dry	10	Mukhtar A. Razzak Divkar, Mohammed Amin Divkar, Shabaz Amin Divkar, Jaitunbi A. Razzak Divkar, Other Rights - Jakira Bilal Khot, Jahida A. Razzak Divkar, Amina Malik Khot, Akhtari Rashid Sayyed, Shehnaz A. Razzak Divkar, Jarina Shafik Khot. (New Tenure) MSEE.
		(3) Koshimbi		34/1 pt	Private	Wet	2100	Shanker Undru, Dattatray Undru, Yashoda Undru, Nirmala and Jayashree Gutunath Thakare, Vimala Harichandrar Harad Other Rights Sitaram Ramchandra Bidvi.
				34/4 pt	Private	Wet	190	Shantaram Balu Thakare, Other right - Koshimbi Society Rs. 7,000/-, 10,000/-, Rs. 1,50,000/- & Rs. 1,50,000/-
				76/1 pt	Private	Dry	180	Jayramdas Nanikram Janjali
				76/4/1 pt	Private	Wet	780	Madhu Budhaji Thakare, Kashi Shantaram, Kalu Balu Jadhav, Anjana, Lata, Snajay Vaman Thakkar, Minor Gardian Anjana Vaman Thakare, Dinesh, Yogesh, Rahul, Vikas and Phulvanti kisan Thakare, Abhay, Suvama, Sugandha, Chandrakala Govind Thakare, Other rights Koshimbi Society Rs. 3,400/-, Rs. 8,000/-, Rs. 11,000/- & Rs. 14,000/- Niles and Alpesh Ahant Havare.
				74/1/1 pt	Private	Wet	250	Babeji, Goma and Namdev Narayan Thakare, Madhu Bhudhaji, Kashi Shantaram, Kalu Balu Jadhav, Anjana, Lata, Snajay Vaman Thakare, Minor Gardian Anjana Vaman Thakare, Dinesh, Yagesh, Rahul, Vikas and Phulvanti kisan Thakare, Abhay, Suvama, Sugandha, Chandrakala and Aruna Govind Thakare, Other right Koshimbi Society Rs. 3,000/-, Rs. 8,000/-, Rs. 11,000/- 14,000/- & Rs. 35,000/-
				74/1/2 pt	Private	Dry	170	Babeji, Goma and Namdev Narayan Thakare
				74/3 pt	Private	Wet	200	Snehal Sainath Taware
				74/5 pt	Private	Non-Agricultural	80	Shriram Barku Mahajan Other right - Parsik Janata Bank Padagha Of Rs. 10,00,000/-
				74/6 pt	Private	Wet	180	Sham Sukarya Kathore

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(4) Kasane	214/6 pt	Private	Wet	670	Ramchandra Degamber Manore, Sumati Vasant, Aravind, Prakash, Nirmala Balkrushna Manore, Other right Devu Dattu Kolekar, Gulab Barku Mali, Danyeswar Dattu Kolekar, Shirish and Sachin Dudaram Kolekar
				214/9 pt	Private	Wet	30	Rupesh, Rajan and Manoj Ashok Patil.
				198/2 pt	Private	Non-Agricultural	700	Nilesh Pratap Nanda.
				42	Private	Non-Agricultural	450	Ganpat Vinayak Halke, Other rights -Loan Bank of Maharashtra Shahapur Of Rs.4,50,000/- Right to use of BPCL for Bombay Manmad Pipeline. Pradeep Rajaram Salvi. Other right Right to use of BPCL for Bombay Manmad Pipeline.
				16/2 pt	Private	Non-Agricultural	330	Jaykisan Bhimsen Dhingra Other right Minor Mineral Penalty Of Rs.10,13,250/-, Right to use of BPCL Bombay Manmad Pipeline
			(5) Kandali	16/7 pt	Private	Non-Agricultural	10	Rajindersing, Paramjising and Jajitsing Bhagatsing Parmar. Other rights Right to use of BPCL for Bombay Manmad Pipeline.
				85/1 pt	Private	Dry	20	Jayprakash Vardakant Kamat, Sunil Prabhakar Temkar, Radhika Sunil Temkar.
				85/3 pt	Private	Wet	90	Sumitrabai Atmaram Patil
				9/1 pt	Private	Wet	90	Sumitrabai Atmaram Patil
				9/4 pt	Private	Wet	60	Bhagirati, Tarabai Shiva Kathora, Kamlaker, Vilas Dattu Kathore, Nivrutti, Nitin, Bhiva, Gulab and Nisha Pandurang Kathore, Kishor, Vaishali, Soni, Rohan, Sugandha Vinayak Kathore, Indubai Maruti Jadhav, Rajubai Bakram Bhoire Other right Koshimbi Society Loan Of Rs.3,300/-, Rs.50,000/- & Rs.10,500 Kamdhenu Milk Production Society Loan Of Rs.1,40,000/- & 1,40,000/-
				3/2	Private	Wet + Pot Kharaba	60	Dagdu Nanu Jadhav.
				24/3 Pt	Private + Gov.	Forest+ Non-Agricultural	40	Reserve Forest Govt. of Maharashtra Shri Gurudev Private Ltd
				16/12 pt	Private	Dry	840	Bishandas Jagannath Sharma, Amarsing, Bhagathsing Sindhu.
				14/6 pt	Private	Wet	350	Vitthal Dhahu Patil Other rights Koshimbi Society Loan Of Rs.2,600/- & Rs.3,000/-
			(6) Talawali - Sonale	24Pt	Private	Non-Agricultural	100	Road, Open Space, Giridhari Takurdas Jaisinghani, Mendrakumar Mishrimal Jain.
				17/1 Part	Private	Dry	1980	Panavelil Vargis Phillip
				17/1Pt	Private	Non-Agricultural	760	Prop. MiltanYangapan Nadare for M/s. Miltan Engineering Works
				17/1 Pt	Private	Dry	1630	Ahmed Raheman Rahamali Ansari, Ahsan Ahmed A.Raheman Ansari, Ansar Ahmed A. Raheman Ansari.
				17/1 Pt	Private	Non-Agricultural	1210	Shambhunath, Amarnath, Alakhanath, Yashwant Pateeram Chavan
				17/1 Pt	Private	Non-Agricultural	1900	Jaykisan Bhimsen Dhingra, Sima Jaykisan Dhingra
				17/1 Pt	Private	Dry	1670	Panavelil Vargis Phillip
				23Pt	Private	Wet	1120	Mustak Ahmed Ilakedar Khan, Imran, Aphifakhathun, Rashidakhathun, Asimakhatun Mustak Khan, Badrunisa Abdul Rahiman Khan, Zulfukar Abdul Kayyum Khan, Aziza Khatun Mustak Khan
			(7) Vadape	56/1 pt	Private	Wet	310	Anusaye, Vasant, Anant, Anil Sakham Sapte, Vanita Harichandra Nikhade.
				56/3 pt	Private	Wet	230	Balkrushna Atmaram Jayvant, Protected Tanant Lukha Gangaram.
				56/2 pt	Private	Dry	170	Lukha Gangaram Sapte.
				56/4 pt	Private	Wet	240	Vishnu Gangaram Sapte, Dattu Gangaram Sapte. Other Rights Transaction in Contravention of Tenancy Act.
				56/5 pt	Private	Wet	260	Maruti Baliram Halya, Shankar Sapte, Aurjun Gangaram Sapte. Other Rights Transaction in Contravention of Tenancy Act.
				66/1 pt	Private	Wet	430	Gurunath, Gopinath Janardan Taware.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				119/1 pt	Private	Dry	180	Balak Singh S. Jerral Singh Saini, Popular Inder Prises Pvt.Ltd. Deepak Makhanlal Gupta, Sanjay Shankar Sakunke, Natesh Thakurand Sharma, Jina Bhavan Kumbhar, Babu Govaldhan Kutbhr, Bhupat Velji Prajapati, Nanikram Visindas Jangiani, Harji Bhavan Kumbhar, Sandeep Ganpat Mahajan, Tushar Suresh Vadake, Rajesh Chintaman Chavan, Nayanika Suresh Chavan, Briljal Prithviraj Jain, Ramchandra Shantaram Patil, Paranjitkaur Bajitsing Saini, Shanabai, Arif, Anis, Arina, Jubeda Mannuddin Vinchu, Suraiya Aslam Kamankar
				119/5 pt	Private	Dry	50	Lukha Gangaram Septe Other right Bhinar Society Rs.10,000/- 06/06/88
				52/2 pt	Private	Wet	390	Sainath and Tushar Yashwant Choudhari, Pankaj and Dhiraj Gurunath Choudhari
				118/1pt	Private	Dry	340	Sainath and Tushar Yashwant Choudhari, Pankaj and Dhiraj Gurunath Choudhari
				55/2	Private	Dry	20	Ragunath Shankar Dongare, Laxmibai, Ramesh, Vasant, Anant and Ravindra Motram Dongare, Asha, Bhavesh, Bhagawan Balkrushna Dogare, Shakuntala Vasant Gulavi, Gulab Gajanan Patil, Jayvanti Sakham Bhair
				74/15 pt	Private	Non-Agricultural	50	Mehandi Hasan Chaudhari
				51/1pt	Private	Non-Agricultural	1050	Ashok Gyanchand Vera
				51/2pt	Private	Non-Agricultural	280	Ashok Gyanchand Vera
				119/2pt	Private	Non-Agricultural	1370	Ramkrushna Chetrapati Patil
				55/1pt	Private	Non-Agricultural	1350	Vinod, Prashant, Jayashree Krushna Tupe
				55/3 Pt	Private	Non-Agricultural	250	Vinod, Prashant, Jayashree Krushna Tupe
				119/4/1 pt	Private	Non-Agricultural	1320	M/s Sima Real Estate Developer Pvt.Ltd.
				119/4/2 pt	Private	Non-Agricultural	1220	M/s Sima Real Estate Developer Pvt.Ltd.
				52/1 pt	Private	Non-Agricultural	1450	Deepak, Sanjay Makhanlal Gupta.
		(8) Dohole		56/5 pt	Private	Dry	100	Mushtak Morad., Shaik Morad., Shahida A.Bhoje, Dilip Marutlal Gutkha Other right Right to use of BPCL for Bombay Manmad Pipeline.
				52/8 pt	Private	Wet	280	Makraddin, Misbauddin, Sujauddin and Nuruddin Nizamuddin Ansari, Hamid, Salim and Sugara Yusuf Shaikh, Khatija, Adam Shaikh, Ajiya Tayyad Shaikh, Other rights Loan of Shantaram Ramkrushna Pathari Loan Of Rs.294/-
				70/1 pt	Private	Non-Agricultural	80	Rais Mohammed T. Choudhari, Riyaj Bismila Samani, Mohammed Umar Mohammed Ali Khan.
				71/2 pt	Private	Non-Agricultural	30	Rais Mohammed T. Choudhari, Riyaj Bismila Samani, Mohammed Umar Mohammed Ali Khan.
				69/5 pt	Private	Pot Kharaba+ Wet	70	Madhuri Anil Dabholker
				100/1B Pt	Private	Dry	300	Ansar, Ahamed Mohammed Yasin Ansari, Momina Farid Ahmed Ansari, Shabana A. Malik Ansari, Jafer Alam Farid Ahmed Ansari, Lubna Salim Ansari, Kurshid Alam Farid A. Ansari, Khalida Farid A. Ansari, Shahid Farid A. Ansari, Salman Farid A. Ansari.
				102/4 pt	Private	Dry	250	Raghunath Kathod Jagdhav.
				102/5/2 pt	Private	Dry	1200	Jhiyauddin Sirajuddin Ansari, Other rights Lease Right Of Fayazuddin Jhiyauddin Ansari For 20/10 1997 From 99 Years.
				102/7 pt	Private	Dry	1600	Nirmalsing Haribajan Dahiwal, Rasपालsing Dalbirsing Phada Other right Right to use of BPCL for Bombay Manmad Pipeline.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				57/2 pt	Private	Non-Agricultural	170	Nivrutti Gangaram Avhad, Suman Nivrutti Avhad Other right Right to use of BPCL for Bombay Manmad Pipeline. Other Rights-Left Bank Bhatsa Canal.
				104 pt	Private	Dry + Non-Agricultural	1000	Chaya Jayvant Mehar, Hrushikesh Pandurang Diwaliker, Asha Murtidhar Nijai. Other right Right to use of BPCL for Bornbay Manmad Pipeline.
				56/6B pt	Private	Non-Agricultural	5220	Jafar Alam Farid Ahmed Ansari, Wakar Ahmed Ansar Ahmed Ansari, Mohammed Yasin Khalil Hasan Ansari.
				57/6A pt	Private	Non-Agricultural +Wet	600	Nivrutti Gangaram Avhad, Suman Nivrutti Avhad. Other right VVadavli Left Bank Canal. Gurunath, Laxman, Ramesh Gopal Phafe. Other right Right to use of BPCL for Bombay Manmad Pipeline.
				52/5 pt	Private	Non-Agricultural	50	Manohar Shrichand Talreja, Renuka Manohar Talreja.
				52/6 pt	Private	Non-Agricultural	420	Manohar Shrichand Talreja, Renuka Manohar Talreja.
				52/7 pt	Private	Non-Agricultural	730	Manohar Shrichand Talreja, Renuka Manohar Talreja. Other right: Right to use of BPCL for Bombay Manmad Pipeline.
				71/1 pt	Private	Non-Agricultural	1900	Rais Mohammed T. Choudhari, Riyaj Bismila Samani, Mohammed Umar Mohammed Ali Khan.
				69/13 pt	Private	Non-Agricultural	130	Rais Mohammed T. Choudhari, Riyaj Bismila Samani, Mohammed Umar Mohammed Ali Khan.
				58/1 pt	Private	Wet + Pot Kharaba	3530	Ejajs Sultan Ali Khan, Jafiya, Rushan, Ajij Ejajs Khan, Sultan Ali Namder Khan, Meher, Jafer and Tasbin Sultan Ali Khan, Sumiya Jafer Ali Khan, Saif and Sharif Jafer Khan Gardian Ejaj Khan Of Rushan, Ajij, Saif & Sharif. Other Rights- Right Bank Bhatsa Canal.
			(9) Borivali	48/4 Pt	Private	Pot Kharaba	10	Ilyas Leo Noronha, Helan Ilyas Noronha Other Rights- Transaction of Contravention of fragmentation Act
				49/1Pt	Private	Wet	40	Ilyas Leo Noronha, Helan Ilyas Noronha
				49/2 Pt	Private	Wet	50	Ilyas Leo Noronha, Helan Ilyas Noronha
				49/3Pt	Private	Dry	40	Nizamuddin Sirajuddin Ansari
				16/1 Pt	Private	Dry	30	Balu Gangaram Desle.
				15/1 Pt	Private	Dry	40	Prabhakar Varman Soman Other Rights- Transaction of Contravention of fragmentation Act
				3/2 Pt	Private	Dry+wet	20	Pratiksha Padmakar Bhoir, Gopal Ambo Pitambare, Kashinath Ramsharan. Upadhyay, Ravindersingh Sarupsingh Sablok, Harbassingh Sarupsingh Sablok, chhabirsingh Sarupsingh Sablok
				3/3Pt	Private	Non-Agricultural	70	Pratiksha Padmakar Bhoir
				50/2 Pt	Private	Non-Agricultural+ Dry	230	Sahid Abdul Rahim Momin, Ekbal Ahmad A. Rahim Momin, Husen A. Rahim Momin, Nurul Hasan A. Rahim Momin, Faruk A. Rahim Momin, Javed A. Rahim Momin Akhtari A. Rahim Momin, Sakhari A. Rahim Momin, Parvin A. Rahim Momin, Nasreen A. Rahim Momin, Firdaus A. Rahim Momin, Pandurang Dattu Desle, Shamsher Ahmed Mohammed Ikram Shaikh, Pankaj Padurang Desle, Izher Ali Husen Siddiki, Rafik Jalaluddin Charoliya, Jagannath Dattu Desle, Sudesh Shankar Salunkhe, Naresh Thakurnand Sharma Other Rights- Loan of Padhghe Society of Rs. 2,50,000/-
				3/4Pt	Private	Non-Agricultural	110	Ravindersing, Harbsing and Rachbirsing Sarupsing Sublok
				B.M.C. Tansa Pipe Line	Govt.	Dry	1490	Mumbai Minicipal corporation
			(10) Arjunali	29/3Pt	Private	Dry	10	Smita, Amruta, Puja and Hardik Suresh Shereker, Ravindar Baliram Shereker

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				29/9Pt	Private	Wet+Non-Agricultural	200	Sudam Kanha Mhatre, Suman Sudam Mhatre, Director for M/s Akuriti land Developers Arvind Chatrabhuj Vora, Mansukhlal Chatrabhuj Vora
				65Pt	Private	Wet	220	Ratna Sanjay Gupta, Anupam Deepak Gupta, Anita Shivkumar Gupta, Anita Mahadev Gupta, Director Nitin Kumar Jora for M/s Aravali Agro Tools & Sheeds Pvt. Ltd.
				30Pt	Private	Non-Agricultural	750	Sudam Kanha Mhatre, Suman Sudham Mhatre
				19/3Pt	Private	Non-Agricultural	350	Premiata, Renuka, Vinesh Shekher Devdiya Abdul Marman Niyamatulla Khan Other right Loan of Basein Catholic Bank Ltd., Papadi, Vasai Rs.29,00,000/- & Rs.20,00,000/-
				16/4Pt	Private	Non-Agricultural	600	Irfan Jalil Patel, Abas Nasimulla Choudhari, Premshanker, Shivshanker Nanukaram Jaiswal, Abdul Aziz Abdul Latif Shaikh, Anis Mohammad Yusuf Ansari
				16/2Pt	Private	Non-Agricultural	2300	Vijay, Depesh and Divya Kishore Lohana Guardian (Mother) Reshma Kishore Lohana
				12Pt	Private	Non-Agricultural	1850	Bipin Ramji Katira
				11/1Pt	Private	Non-Agricultural	120	Bipin Ramji Katira
				19/4Pt	Private	Non-Agricultural	1700	Lakbir kaur Sahebsingh, Sandhu Sarbajit singh Sahebsingh
				19/3Pt	Private	Non-Agricultural	2200	Premiata, Renuka, Vinesh Shekher Devdiya Najmuddin Musaji Kapashi, Abdul Marman Niyamatulla Khan Other right Loan of Besin Catholic Bank Ltd., Papadi, Vasai Rs.29,00,000/- & Rs.20,00,000/-
				24/2Pt	Private	Wet+NA	1000	Mukhtiyar, Ridvan, Mehrunnisa Ismail Shaikh, Gani, Subhan, Ayuba, Jabar, Amina Aahmed Shaikh, Mudasar, Mozam, Mubrin Mushtak Shaikh, Shabnur Rafik Shaikh, Shabnur Irfan Shaikh, Akhtar Usman Shaikh Road, Service Road & Open space Bablualla, Samiaulla, Saifulla Hakali Chaudhari
				25/2Pt	Private	Wet+NA	3530	Mukhtiyar, Ridvan, Mehrunnisa Ismail Shaikh, Gani, Subhan, Ayuba, Jabar, Amina Aahmed Shaikh, Mudasar, Mozam, Mubrin Mushtak Shaikh, Shabnur Rafik Shaikh, Shabnur Irfan Shaikh, Akhtar Usman Shaikh Other Rights- Loan of Padghe Society of Rs.25000/- Bablualla, Samiaulla, Saifulla Hakali Chaudhari, Mohammed Sharif Mumtaz Khan, Ragilal Jinu Sharma, Haji Abubakar Haji Kitabulla, Said Hussan Nabi Rahem, Mazhar Hussan Shokat Ali
				26/5 Pt	Private	Non-Agricultural	600	Padmanabha Duda Kotiyan, Anand Gopal Jathan, Manisha Padmanabha Kotiyan, Kavita Anand Jathan Other right Loan of The Bharat Co-op. Bank, Mumbai Rs.50,00,000/-
				17/1 Pt	Private	Non-Agricultural	300	Gulam Hussain Mohd. Ismail Momin, Mohd. Afzal Ismail Momin, Maksud Ahmed Ismail Momin
				28/1 Pt	Private	Non-Agriculture + Wet	2800	Chandrakant and Suresh Sitaram Bidvi, Ibrahim Allauddin Patel, Other right Ibrahim Patel
				1/1+2/1A Pt	Private	Wet	500	Kewalchand Ganeshmal Jain, Meharkerkumar Mihsrimal Jain, Ajay Kumar Madhusudan Sadhu
				2/4 Pt	Private	Wet	100	Rafat Mohd. Amin Shaikh
				12 Pt	Private	Non-Agricultural	1235	Bipin Ramji Katira
				13/1 Pt	Private	Wet	1850	Suraiya Mushtak Patel
				13/2 Pt	Private	Wet	1350	Jahangir Gulam Mohammad Patel, Vakas Mustak Patel
				13/3 Pt	Private	Wet	1300	Jahangir Gulam Mohemmad Patel, Vakas Mustak Patel
				14/1 Pt	Private	Orchard	70	Vakas Mustak Patel Other right Loan of TRO (C) Thane Rs.1575288/-
				15/1	Private	Wet	920	Kevalchand Ganeshmal Jain, Mahinderkumar Misrimal Jain, Ajay Kumar Madhusudan Sadhu

4883 GI/08-6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				15/2 Pt	Private	Wet	1420	Badrunnisa Murtuza Ansari, Shahanaaz Khatun Shakil Ahmed Siddiki,
				15/3/1 Pt	Private	Wet + Dry	940	Kevalchand Ganeshmal Jain, Mahinder Kumar Misrimal Jain, Ajay Kumar Madhusudan Sadhu
				15/3/2 Pt	Private	Wet	1388	Vakas Mushtak Patel
				16/2 Pt	Private	Non-Agricultural	1050	Vijay, Depesh and Divya Kishore Lohana Reshma Kishore (Mother) Guardian
				16/3 Pt	Private	Dry	170	Masjid Trust Gulam Hussain A. Gafur Patel Other right Ordinary Tenant Khairunnisa Sharafuddin Devkar, Zahid Sharafuddin Devkar, Mohammad Husan Sharfuddin, Nurjhan Sayed Rais
				16/4 Pt	Private	Non-Agricultural	1700	Irfan Jalil Patel, Abbas Nasibulla Chaudhari, Premshanker Nanakuram Jaiswal, Abdul Aziz Abdul Latif Shaikh, Shivshanker Nanakuram Jaiswal, Anis Mohammad Yusuf Ansari
				16/5 Pt	Private	Wet	220	Masjid Trust Gulam Hussain A. Gufur Patel Other right Ordinary Tenant Asma Abdul Rashid Patel, Malika Asmed Kungale
				17/1 Pt	Private	Non-Agricultural	550	Abdul Wahid Mohammad Yakub Ansari, Abdul Aziz Abdul Latif Shaikh, Vasim Abdul Aziz Shaikh, Abdul Marman Niyamatulla Khan, Farookh Gulam Ahmed Patel, Kalimulla, Attaulla, Waliulla Wali Mohd. Choudhari, Wali Mohd. Jumman Chodhari, Suresh Appashaa Gugale, Dharmender Kumar Kripashankar Dubey, Girija Shankar Ramlakhan Mishra, Salma Azgarali Sotwala, Hamzala Ismail Badami, Razaali Sobatali, Abubak Mohd. Allam, Haji Ahemd Abdul Shakur Marfani, Zaibunnisa M. Bashir Memon, Zaitunnisa M. Anis Marfani, Mohd. Rafik Ahmed Marfani, Fatima Abdulsamad Lahav
				17/5 Pt	Private	Non-Agricultural	240	Abdul Wahid Mohammad Yakub Ansari, Abdul Aziz Abdul Latif Shaikh, Vaism Abdul Aziz Shaikh, Abdul Marman Niyamatulla Khan, Farookh Gulam Ahmed Patel, Kalimulla, Attaulla, Waliulla Wali Mohd. Choudhari, Wali Mohd. Jumman Chodhari, Suresh Appashaa Gugale, Dharmender Kumar Kripashankar Dubey, Girija Shankar Ramlakhan Mishra, Salma Azgarali Sotwala, Hamzala Ismail Badami, Razaali Sobatali, Abubak Mohd. Allam, Haji Ahemd Abdul Shakur Marfani, Zaibunnisa M. Bashir Memon, Zaitunnisa M. Anis Marfani, Mohd. Rafik Ahmed Marfani, Fatima Abdulsamad Lahav
				17/4 Pt	Private	Non-Agricultural	1600	Abdul Wahid Mohammad Yakub Ansari, Abdul Aziz Abdul Latif Shaikh, Vaism Abdul Aziz Shaikh, Abdul Marman Niyamatulla Khan, Farookh Gulam Ahmed Patel, Kalimulla, Attaulla, Waliulla Wali Mohd. Choudhari, Wali Mohd. Jumman Chodhari, Suresh Appashaa Gugale, Dharmender Kumar Kripashankar Dubey, Girija Shankar Ramlakhan Mishra, Salma Azgarali Sotwala, Hamzala Ismail Badami, Razaali Sobatali, Abubak Mohd. Allam, Haji Ahemd Abdul Shakur Marfani, Zaibunnisa M. Bashir Memon, Zaitunnisa M. Anis Marfani, Mohd. Rafik Ahmed Marfani, Fatima Abdulsamad Lahav

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				17/6 Pt	Private	Non-Agricultural	60	Abdul Wahid Mohammad Yakub Ansari, Abdul Aziz Abdul Latif Shaikh, Vaisam Abdul Aziz Shaikh, Abdul Marman Niyamatulla Khan, Farookh Gulam Ahmed Patel, Kalimulla, Attaulla, Waliulla Wali Mohd. Choudhari, Wali Mohd. Juraman Chodhari, Suresh Appashaa Gugale, Dharmender Kumar Kripashankar Duby, Girija Shankar Ramakhan Mishra, Sakma Azgarali Sotwala, Hamzala Ismail Badami, Razaali Sobatali, Abubak Mohd. Allam, Haji Ahemd Abdul Shakur Marfani, Zaidunnisa M. Beshir Memon, Zaitunnisa M. Anis Marfani, Mohd. Rafik Ahmed Marfani, Fatima Abdulsamad Lahav
				19/3 Pt	Private	Non-Agricultural	761	Abdul Wahid Mohammad Yakub Ansari, Abdul Aziz Abdul Latif Shaikh, Vaisam Abdul Aziz Shaikh, Abdul Marman Niyamatulla Khan, Farookh Gulam Ahmed Patel, Kalimulla, Attaulla, Waliulla Wali Mohd. Choudhari, Wali Mohd. Jumman Chodhari, Suresh Appashaa Gugale, Dharmender Kumar Kripashankar Duby, Girija Shankar Ramakhan Mishra, Sakma Azgarali Sotwala, Hamzala Ismail Badami, Razaali Sobatali, Abubak Mohd. Allam, Haji Ahemd Abdul Shakur Marfani, Zaidunnisa M. Bashir Memon, Zaitunnisa M. Anis Marfani, Mohd. Rafik Ahmed Marfani, Fatima Abdulsamad Lahav
				69/1A Pt	Private	Dry	446	Kevalchand Ganeshmal Jain, Mahinder Kumar Misrimal Jain, Ajay Kumar Madhusudan Sadhu, Jorabibi, Malik Ahmed, Suraiya, Mumtaz, Sidika, Khalil, Jhangir Gulam M. Patel, Chandu Appa Kori Jaladar
				69/3 Pt	Private	Dry	6700	Kevalchand Ganeshmal Jain, Mahinder Kumar Misrimal Jain, Ajay Kumar Madhusudan Sadhu, Maruti Nabaji Mugalmugle, Navid, Javid, Rayan Iqbal Bharmal, Zahur Ahmed Nizamuddin Shaikh, Shahaallam Zahur Ahmed Shaikh, Zahur Ahmed (Father) Guardian,
	2. Shahapur	(1) Algaon		21/1 pt	Private	Wet	130	Prabhavati Harikisana Rajput, Bhagwandas and Ganesh Lakhaji Chudasama, Abdul Hafiz Aji
				31 pt	Private	Wet	50	Ramabai, Manoj, Milind, Rahul and Kavita Pandharinath Salve, Ganesh Lakhaji Chudasama Other Rights- Acquisition by Ministry of Defence, Govt. of India
				33/8 pt	Private	Wet	30	Namdev, Kashinath and Chandrabhaga Dama Adhikari, Changunabai, Pandurang, Shankar, Asha, Shobha Baban Adhikari, Bayabai Babu Mhatre, Fasabai Kashinath Gage, Janabai Narayan Bhagat, Yamunabai Mangal Bhande, Suman Dama Adhikari, Bhagibai Kalu Tagade Other rights- Loan of Ahmadmiya Akbar Society Rs. 150/-
				33/8 pt	Private	Wet	200	Namdev, Kashinath and Chandrabhaga Dama Adhikari, Changunabai, Pandurang, Shankar, Asha, Shobha Baban Adhikari, Nanda, Suresh, Arvind Namdev Adhikari Other right Ahmadmiya Akbar Society Rs. 150/-, Bayabai Babu Mhatre, Fasabai Kashinath Gega, Janabai Narayan Bhagat, Yamunabai Mangal Bhande, Suman Dama Adhikari, Bhagibai Kalu Tagade
				46/1 pt	Private	Non-Agricultural	700	Babibai Vitthal Shetti Other Rights- Acquisition by Ministry of Defence, Govt. of India
				36 pt	Private	Non-Agricultural	1100	M/s New Look Electronics Centre Prop. Kiran Vasudev Vadhvani
				39/3 pt	Private	Non-Agricultural	1900	Gururanak Metal Works Thane Partner Shashipal Gupta and Rakesh Gupta, Durgama Ispat and Metal Pvt. Ltd. Prop. Shusma S. Gupta Other Rights- Right To use of BPCL for Bombay Manmad Pipeline
				40/4 pt	Private	Non-Agricultural	500	Gururanak Metal Works Thane Partner Narayan S. Gupta, Deepak R. Shah, Satish P. Shah

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				58/2 pt	Private	Non-Agricultural + Dry	200	Uttamchand Chaganlal Gandhi, Other Rights-Right To use of BPCL for Bombay Manmad Pipe Shevantabai Kisan Binnar, Sulochana Bhuda Nimse B.K. Ken Works Prop. Birendra Kumar Babansinh Other Rights-Loan of Bank of Badoda Shakha Kurla, of Rs. 9.73000/-
				58/3 pt	Private	Non-Agricultural + Dry	4300	Uttamchand Chaganlal Gandhi Other Rights-Right To use of BPCL for Bombay Manmad Pipeline, Forest
			(2) Shirol	915 pt	Private	Pot Kharaba	650	Parashram, Vasant Malu Vaghchoure
				916 pt	Private	Pot Kharaba	360	Rukhminibai, Jagannath, Vilas Bhagwan Pawar, Jayshri Prakash Chandramore, Bharati Gurudatt Borde, Kanchan Ramesh Jadhav, Sujata Suresh Bhalerao, Vandana, Shital, Shamal, Ajay Pramod Pawar
				954 pt	Private	Wet	200	Baban Malu Dhapte, Bhagirathi Goma Bhade, Barki Kalu Bhagat, Indu Shidya Paneda, Ani Narya Kalchida
				992 pt	Private	Wet+Dry	80	Babu Valku Dinker
				1295 pt	Private	Wet+Dry	1070	Girji Kamlu Dhgate
				970 pt	Private	Wet	290	Dattu Hema Dhgate
				946 pt	Private	Wet	200	Baban Malu Dhgate, Bhagi Goma Bhade, Barki Kalu Bhagat, Indu Shidya Paneda, Ani Narya Kalchida
				929 pt	Private	Wet	100	Keru Ladaku Vishe
				978 pt	Private	Dry	200	Vinod, Ramdas Balan Mate Other right Shirol Society Rs.600/-
				955 pt	Private	Wet	200	Valku, Soman, Shavanti Dhau Dhgate Other Right Buga Sakaru Kamadi, Dhondi Dattu Kamadi; Sani Sanya Kamadi, Ambi Soma Pingala
				969 pt	Private	Wet+ Pot Kharaba	500	Changor Dhau Dhgate, Bango, Budhya Palo Dhgate, Vitthal Bhau Dhgate
				972B pt	Govt.	Dry	335	Akari Padit
				927 pt	Private	Wet	10	Jamilabai Daud Dalvi Other Right Condition as Per Surve No.488/1
			(3) Gothehar	5/2/1/3 Pt	Private	Wet+Dry	100	Bhagwan, Ganesh, Pundalik, Tai, Dipak, Yamunabai Khandu Adhikari, Kamal Prakash Andade, Vimal Prakash Andade, Kanta Prakash Gatir
				30/2 Pt	Private	Non-Agricultural	35	Ravalsingh Kartarsingh Bhoparay, Urmila, Anand, Manish, Ajit Maruti Bhoir, Vasant Ambo Padaval, Dipak Shivram Bhare, Shadashiv Devu Dudhele Sunita Shantaram Bhoir, Ashok Devidas Pawar, Anant Parsu Ghatke, Other Rights - Forest
				36 Pt	Private	Dry + Wet	700	Kashinath Dattatray, Lata, Uma, Kishor, Fakira Dingore, Manohar, Alka and Gulab Sham Dingore, Balasaheb Pandharinath Shinde, Janabai Gangaram Desle, Laxman Palo Adhikari, Kachru Mahadu Dingore, Jungle Palo Adhikari, Lahu Mahadu Dingore, Bhagwan, Ganesh, Dipak and Tai Pundalik, Yamunabai Khandu Adhikari, Kamal, Vimal, Kanta Prakash Andade, Kamlesh Kantilal Shaha, Jabi Govind Khatik, Pandurang Laxman Adhikari
				7/2 Pt	Private	Non-Agricultural	400	Kisan Ambo Bhande
				7/3 Pt	Private	Non-Agricultural	100	Kisan Ambo Bhande
				24A/1 Pt	Private	Wet	400	Mohammad Ali, Akbar Ali Bohari, Saraf Ali Akbar Ali Bohari,
				29/1 Pt	Private	Non-Agricultural	50	Arun Tukaram Vekhande,
			(4) Pali	153 Pt	Private	Dry	20	Balkrushna Kaluram Tarne, Ved Vigyan Vidyapeth, Bangalore, Other Rights - Right Bank Bhatsa Canal
				184 Pt	Private	Dry	170	Tukaram Hari Halke., Kushi Govind Halke Other rights Loan of Khativali Society Rs.3000/-, Rs.3000/- & Rs.7,500/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				201 Pt	Private	Dry	10	Ganpat Vitthu Tarane, Mirabai Namdev Jadhav, Vitthabai Sakharan, Devu Vitthu Tarane. Other rights- Loan of Khativali Society Rs.2,500/-, Rs.800/-, Rs.4000/-
				179 Pt	Private	Non-Agricultural	2580	Ved Vigyan Mahavidyalay, Bangalore
				206A Pt	Private	Non-Agricultural	1700	Kamal Atamaram Pagare, Arif, Mumtaz, Ruksana, Bilal, Safina, Ashikchand Shaikh, Raheja, Minhja Sayyed, Sakina Mohemmad Shaikh, Other rights- Loan of Urban Co-op Society and Varangaon Society of Rs.4,00,000/-
				212/1 Pt	Private	Non-Agricultural	350	Sardar Kevalsingh, Sarbansingh, Jogendersingh Ujagarsingh
			(5) Pimpalpada	67Pt	Private	Wet	900	Harinarayan Laxmisingha
				58Pt	Private	Non-Agricultural + Wet	2500	Shaikh Ahmed Masumbhai Attar, Kankhan Girish Nandedker, Shamabai, Ikbal, Arif, Ibrahim, Shahajahan Abdul Raman Attar, Kurbano Rafik Attar, Mubarak Qadir Attar, Latifa Yunus Attar, Nafisa Ikbal Attar Other rights-Loan of Kadaki Society-Rs.175/-
				56Pt	Private	Dry	1219	Abdul, Aziz M. Ibrahim Shaikh, Anuja Arun Khanvilkar
			(6) Khativali	230Pt	Private	Dry	1230	Manglya, Bhajan Shiva Katkari, Gangubai Dama Katkari, Changi Kamalu Katkari Other rights- Loan of Khativali Vashind Sahakari Society Rs.100/- Conditions as per Mutation Entry in Survey No.9 (New Tenure)
				217 Pt	Private	Dry	150	Ramchandra Rangu Kadi, Other rights- Conditions as per Mutation Entry in Survey No.9
				216 Pt	Private	Dry	30	Devakabai Chandrakant Vaghe (New Tenure) Other Rights- Govt. right on trees and bushes
				352 Pt	Private	Wet	30	Chintaman, Kamalakar, Nirmala, Vinay and Vasudev Jadhav, Kavita Kaluram Gharat, Chandrakala Jagannath Bhare, Rajshree Rajender Pawar Other rights-Loan of Khativali Vashind Sahakari Society Rs.3000/-, Rs.1,00,000/-, Rs.5000/-, Transaction of Contravention of fragmentation of Section 43 of BT & AL Act. Govt of India National Highway No.3
				353 Pt	Private	Wet	100	Manohar, Vilas, Chandrakant, Laxmibai, Pramod Balu Jadhav, Jaivanti, Jayant Bhoir, Laxmibai Balu Jadhav
				263 Pt	Private	Wet	50	Bachansingh, Ratansingh, Ranjitsingh Sulasansingh Gil Other rights- Conditions as per Mutation Entry in Survey No.9 Acquisition for Right Bank of Bhatsa Canal
				240 Pt	Private	Non-Agricultural	1400	Yoginderpal Khanna, Sudesh Yoginderpal Khanna Other Rights - Right to use of BPCL for Bombay Manmad Pipeline
				25 PT	Private	Non-Agricultural	820	Lata Ramesh Ghalpe, Savita Bhaskar Jadhav, Poonam Pandurang Patil, Janradan Yeshwant Bhoir, Premkumar Sanchan Gupta Other rights- Conditions as per Mutation Entry in Survey No.9
				351 Pt	Private	Non-Agricultural	900	Jyotsna Vishwanath Dongare, Gajanan Naryan Bhagwat, FiroZ Ratan Shaha Sanjana, Vasant Ganesh Karnik, Nandkumar Dwarkanath Gujar, Sugandha Pandhrinath Gujar, Rahul Pandhrinath Gujar, Rupesh Pandhrinath Gujar, Other Rights- Loan of Dombivali Nagari Sahakari Bank, Shahapur Rs. 18,67,000/- Vishwanath Ramchandra Dongare, Mahadev Vishwanath Desai, Uday Vasant Karnik, Aroka Aone Thomas, Armol Aone Thomas, Armol Efen Thomas, Jairam Nana Jadhav Other Rights- Conditions as per Mutation Entry in Survey No.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				251 Pt	Private	Wet	100	Bayamabai Janu Bij, Manjula Navsu Gavane, Thakibai Namdev Gangode, Janki Halya Vad, Sakharam, Ramesh, Shevanti Sitaram Vad Other Rights- Conditions as per Mutation Entry in Survey No.9
			(7) Kalambhe	1A Pt	Private	Wet	50	Nanu, Laxman, Lahu and Shantaram Namdev Dhalpe Other rights- Loan of Tagai Rs.150 Dtd.07/06/1995
				41A Pt	Private	Wet	50	Jagdish, Satish Kasinath Gujarathi, Nitin Bhikulal Gujarathi, Krupa Umesh Shaha, Rupa Surendarkumar Shroff, Shilpa Suganesh Shaha, Dipa Gitesh Kalyani, Vasanti Bhikulal Gujarathi, Rajender, Milind Suresh Gujarathi, Vina Mukesh Shroff, Hema Mukesh Kapadiya, Suvarna Suresh Gujarathi, Chaya Probodhan Kapadiya, Bharati Kishor Vani
				228 Pt	Private	Dry	500	Govind Narayan Kirpan, Other Rights- Forest
				45 Pt	Private	Dry	100	Nanu, Laxman, Lahu and Shantaram Namdev Dhalpe
				47 Pt	Private	Wet	8	Changunabai Kamlu Dhalpe, Goribai Govind Jadhav, Ashabai Ramu Choudhari, Jijabai Kashinath Bondre, Vimal Kamlu Dhalpe
				48 Pt	Private	Dry	100	Rajender Suresh Gujarathi, Govt. of India, National Highway
				227A Pt	Private	Wet	50	Govind Narayan Kirpan, GOI National Highway No.3, Society of Helpers of Mary
				6 Pt	Private	Dry	200	Govind Narayan Kirpan
				2A Pt	Private	Wet	265	Govind Narayan Kirpan
				8 Pt	Private	Dry+ Non-Agricultural	1200	Society of Helper of Mother Mary--Other Rights Forest
				227A Pt	Private	Wet	23	Govind Narayan Kirpan, Society of Helpers of Mary, Govt. of India, National Highway No.3,
				228 Pt	Private	Dry	14	Govind Narayan Kirpan, Other Rights-Forest
			(8) Cherpoli	54Pt	Private	Wet	100	Sakubai, Shantaram, Anant Vishnu Bhare, Sujata Sunil Nichite, Asha, Jagruti Prakesh Bhare, Laxmibai, Sudhakre, Damoder, Vitthal Ragho Bhare, Bhimabai, Sanjay, Vilas, Satish Ramesh Bhare, Other right Taghi Rs.200/-
				57 Pt	Private	Wet	50	Sanjay Vitthal Pandhare, Govt. of India
				74 Pt	Private	Wet	900	K.P. Sons Prop. Haji Kasim Haji Saleha M. Patel, Govt. of India
				102 Pt	Private	Dry	50	Ashoke Pandurang Vishe, Kashinath Fakira Dingore, Forest
				78 Pt	Private	Dry	250	Maruti, Kashinath, Ananta, Vinayak Laxman Bhare, Mukesh, Prasad Vitthal Bhare, Changunbai, Nitin, Yogesh, Sudhir and Gulab Tukaram Bhare
				168 Pt	Private	Wet	400	Gajanane, Satishchandra, Mohan Shantaram Kelaker, Shubhlaxmi, Kishor, Pandmakar Narayan Kelaker, Sujata Shekar Parulekar Other Rights - Transactions in contravention of fragmentation Act.
				162 Pt	Private	Dry	800	Aruna Kacharu Rohe, Shashikant Gajanan Patil Other Rights-Transactions in contravention of fragmentation Act.
				169 Pt	Private	Dry	400	Kacharu Govind Bhare, (Conditional Tenure)
				170	Private	Dry	950	Sukubai, Shantaram, Ananta Vishnu Bhare, Sujata Sunil Nichite, Asha, Jagruti Prakash Bhare Other Rights - (New Tenure)
				230A Pt	Private	Dry	1500	Rupali Chandramohan Rane (Conditional Tenure)
				65 Pt	Private	Non-Agricultural	300	Arvindkumar Rashikalal Shaha, Sunita Arvind kumar Shaha, Kamalata Shival Shaha, Aruna Gunvantlal Shaha,
				67 Pt	Private	Non-Agricultural	300	Rajesh Dwarknath Thakker, Maruti Sonaji Sarode, Chandrabhan Dayndev Sarode, Ramesh Janardan Liye, Parshuram Shivram Gage, Ramu Tukaram Pawar, Janardan Tukaram Pawar, Open Space and Road, Govt. of India Other right Kondabai Dattu Vashe, Sunita Sitaram Adhere, Babi Moreshwar Patil
				230A Pt	Private	Dry	300	Rupali Chandramohan Rane (Conditional Tenure)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				234 Plot No. 20	Private	Dry	500	Ramu Shankar Shelar (New Tenure) Other Rights-Right of Govt. on trees & bushes
				234 Plot No. 19	Private	Dry	9600	Shantibai Lahu Lalkhan Other Rights- (New Tenure) Right of Govt. on trees & bushes
		(9) Washind	193/5	Private	Wet	180		Balaram, Ladku, Ganpat, A.P.K. Tulasa Bai Ganpat Shelar, Laxman, Krishna, Santosh Devu Shelar, Dipak Dattatray Shelar, Mina Shivram Jadhav, Marjula Bai Dattatray Shelar, Vitthal A.P.K. Laxmibai Vitthal, Other right Bhimabai Narayan Bhoire, Tarabai Atamaram Bankare, Hira Devu Shelar, Girjabai Devu Shelar
		(10) Waphe	85/3 pt	Private	Dry	450		Laxmibai, Vijay, Kishor Ramesh Kene, Kusum Vinod Chaven, Anju Prashant Kubera, Suyama Ramesh Patil, Chitra Raghunath Mhatre,
			51/3 pt	Private	Non-Agricultural	15		Narayan Chintaman Soman, Gopal Narayan Shirke, Dharma Narayan Dingore, (Road) Venubai, Ravindra Dattatray Patil, Pannalal Ramlal Khattri, Sharda, Kiran Madhukar Patil, Kishor Raghunath Anande, Madhukar Dharmaji Patil, Rashida Nizamuddin Diwan, Pandurang Dudaji Jagare (Road) Ramdas Tukaram Deshmukh, Sushila Setish Patkar, Santosh Shivaram Kumavat, Jagdish Shankar Bhavsar Dilip Budhaji Dhume, Pushpa Maruti Channe, Pandurang Ganpat Thorat
			88/3 pt	Private	Dry	100		Anandibai, Dilip Govind Damane, Vimal Suresh Patil, Kamal Nandan Mhatre
			49/2 pt	Private	Wet	700		Anandibai, Dilip Govind Damane, Vimal Suresh Patil, Kamal Nandan Mhatre,
			86/1 pt	Private	Dry	28		Budha Pangulu Malpekar, Other right - Loan of Adivashi Society Rs. 3500/-, Rs. 20,000/-
			61 pt	Private	Dry+Non-Agricultural	1400		Suryakant Bhogilal Shah, Narayan Shankarrao Adhikari, Vasant Ganpat Adhikari, Gunwath, Bhagwan, Anita, Vanita Hari Adhikari, Minal Hira Bhoir, Anusya Hari Adhikari, Subhesh, Suman, Shikuntala Balu Adhikari, Anand Ganpat Adhikari, Setish Ganpat Adhikari, Jitender Ganpat Adhikari, Kokeri Vikas Mahamandai Other Right (New Tenure on condition 1 to 18)
		(11) Kalamgaon	255 Pt	Private	Non-Agricultural	5500		Sidheshwar Foods Pvt.Ltd., Forest
			235A Pt	Private	Wet	200		Krishna Undiya Velhonde, Conditional Tenure
			236 Pt	Private	Wet	300		Shankar and Khandu Bhuva Velhonde,
			378 Pt	Private	Wet	338		Khandu Bhuva Velhonde Other right - Loan of Rs. 165.84 of Ramkrishna Atamaram Patkar,
			380 Pt	Private	Wet+Dry	119		Vitthal Raghunath Bhoir, Marjula Racho Patil
			381 Pt	Private	Wet	164		Laxman Ganpat Velhonde
		(12) Umbarkhand	40 Pt	Private	Dry	750		Radhesham Savarnal Agrawal,
			114Pt	Private	Non-Agricultural	550		Niyaz Ahmed, Martuza Husen Choudhari
		(13) Lahe	327 Pt	Private	Dry	600		Vishnu N. Nsata for Alide Consulting Engineers Pvt.Ltd., Other Rights - Loan of Rs.404.20 of B.S. Bhade.
			329	Private	Dry	260		Ananta, Ramu, Suman, Gangadai Ganu Ghagas, Other Rights- Loan of Rs.136.90 of Pratapsingh Bihari Lal.
			330 Pt	Private	Dry	30		Ganpat and Bhaskar Chahu Khambalekar, Kamal Baban Sarde, Baraki Ponam Sarade, Other Rights - Loan of Rs.136.90 of Pratapsingh Bihari Lal.
			319 Pt	Private	Dry	50		Sakubai Kacharu Vishe
			102 Pt	Private	Dry	430		Janabai Maharao Jadhav, (Conditional Tenure)
			521A Pt	Private	Wet	1500		Balu Pandurang Khambalker, Other Rights- Loan of 589.00 of B.S. Bhade, Loan of Rs.15000.00 of Kanvinde Society, (New Tenure) Loan of Kabja Hakka 1/2 of Rs.25.52
			521B Pt	Private	Wet	200		Balu Pandurang Khambalker, Other Rights - (New Tenure) Kabja Hakka 1/2 of Rs.20.52, Loan of Rs. 589.00 of B.S. Bhade.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				328 Pt	Private	Dry	250	Kunda, Kalpesh, Nimesh, Manoj, Yojana Vishnu Ghagas, Protected Tenant - Kamlu Ladku Bhoir.
				551 Pt	Private	Dry & Wet	500	Ashok Sabhubhai Turkiya, Jayantilal Khimaji Sone, (Conditional Tenure)
				344 Pt	Private	Non-Agricultural	500	Satishkumar Shrinathsingh
				296 Pt	Private	Dry	1270	Sadashiv Dattatray Khade, Rajni Sadashiv Khade, Sunita Vitthal Khade, Kalpana Vasant Raut, Bharti Jagdish Patil, Vdiya Shashikant Vekhande, Sima Suresh Patil, Sadhana Vitthal Khade, Arpana Vitthal Khade.
				386 Pt	Private	Wet & Dry	100	Lata Ganya Mukne, Girji Ganpat Wagh, Maini Kamlya, Other Rights - Loan of Rs.397.50 of B.S. Bhade
				556A Pt	Private	NA + Wet	600	Vishnu N. Nasta for Alide Consulting Engineers Pvt.Ltd., Ramu Panga Bhoir, Other Rights - Loan of Rs.12000.00 of Kanvinde Seva Society.
			(14) Kasara Budruk	59 Pt	Private	Dry	600	Bhau Maidu Kamadi, Mangya, Budhya Rama Kamadi, Tulashi Damu Thimara, Dharma Ragho Hirava, Harichander Kisanlal Gupta, Goma, Nago Dharma Dhobi, Ambi Sakarya Dhapate, Kashibai Navasu Katvar, Other Rights - Forest
				35 Pt	Private	Wet	520	Somanath Govind Jadhav Other Rights - Loan of Kasara Society Rs.3600/-
				3/3 Pt	Private	Non-Agricultural	2550	Notandas, Gulmuldas Namomal Khubchandani, Vasudev Notandas Khubchandani, Rajkumari Gurumukhdas Khubchandani, Manoj and Girish Dunichand Kalani
			(15) Kasara Khurd	116 pt	Private	Wet	500	Kamlu, Shidya Hari Mange, Kashibai Kondaji Agivale
				12 pt	Private	Non-Agricultural	700	Chandrakant Shankar Bhide, Smita Chandrakant Bhide, Asmita Dhananjay Aathavale.
				42/1 pt	Private	Wet	1570	A. C. Mohmad Abdul Malbari
				42/2 pt	Private	Wet	450	A. C. Mohmad Abdul Malbari
				43/1 pt	Private	Wet	590	Kanu malya Mange.
				34/3 pt	Private	Dry	400	Kamlu Hari Mange, Shidya Hari Mange, Kashibai kondaji Agivale, Indubai Sonu Thakare. (Condition Tenure)
				34/4 pt	Private	Dry	850	Sonu, Budha, Soma Palo Jugre, Bhagi Goma Paradhi, Sunny Soma Sataru, Parvati Hari Mange (Condition Tenure)
				137 pt	Private	NA+Dry	34	Sonu, Budha, Soma Palo Jugre, Bhagi Goma Paradhi, Sunny Soma Sataru, Parvati Hari Mange. (Condition Tenure) Forest
				33/2 pt	Private	Dry	34	Samsad Mamud, Sharifa Mamud Kudalkar, Rais Ahmd. Moh. Gani Kudalkar, Mobin Moh. Gani Kudalkar, Abdl. Mosim Mohm. Parvin Bano Mohm. Gani Kudalkar, Guardian Reshma Bano Mohm. Gani Kudalkar
				133 pt	Private	Dry	14360	Bendu Nama Bhasma, Ravji Navsu Bhasma, Bhau, Hema, Dharma Bhasma, Shantibai Manglu Bhagat, Shivaram, Tatya, Girjabai Puna Bhasme, Jaebai Chander Kamdi, Jaebai Bhagavir, Ambabai Janu Keyhari, Changunabai Shantu Thakare, Agalabai Kashinath wagh, Shevántabai Chandar Agivale.
				138 pt	Private	Dry	3750	Bango Chango Mange.
				169/A/4	Private	Dry	330	Rama Kamlu Thakre.
				170/A	Private	Dry	411	Manglya Goma Bhagat, Rakhmibai Goma Bhagat.
				169/A/1 pt	Private	Dry	195	Devu Bhavdya Kamadi.
				168/1/A pt	Private	Dry	400	Bhika Kamlu Mange
				168/1/B pt	Private	Dry	950	Dharma Ragho Kamadi
				69/2 pt	Private	Dry	100	Sonibai Ambo Mange.
				179 pt	Private	Wet	1500	Bhika Kamlu Mange
			(16) Punadhe	18 Pt	Private	Wet+Dry	800	Mansu Parsu Varli, Anandibai Pandu Varli, Jankibai Kusha Ghulum, Vimal, Vishnu and Asha Laxman Harad, Tai Lasha Phufane, Raghi Ladku Desale, Other Rights - Right to use of Bombay Manmad Pipe Line 3330 Sq.m

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				19/1 Pt	Private	Wet	170	Vilas, Anandi, Manjula Namdev Nichite, (New Tenure), Ganpat, Balkrushna, Pundalik, Nirabai, Rakhmabai Hari Nichite, Shalubai Yashwant Gole, Sulochana, Ranjana, Anjana, Satish, Rekha Ragho Nichite, (New Tenure), Narayan, Bapu, Maruti Bhiva Nichite, Bhimabai, Govind, Balu, Pramod Shantaram Nichite, Alka Krushna Bhondve, Sangeeta Yashwant Lone (New Tenure), Forest
				20 Pt	Private	Wet	510	Vilash, Anandi, Manjula Namdev Nichite, (New Tenure), Balkrushna, Pundalik, Mirabai, Rakhmabai Hari Nichite, Shalubai Yashwant Gole, Sulochana, Ranjana, Anjana, Santosh, Rekha Ragho Nichite, Rajesh, Vinod Ganpat Nichite, Krupa Anil Ghodvinde, Kavita Arun Varanjule, Pramila Ganpat Nichite, (New Tenure), Narayan, Bapu, Maruti, Savitribai Bhiva Nichite, Bhimabai, Govind, Balu, Pramod Shantaram Nichite, Alka Bhondve, Sangeeta Yashwant Loni - (New Tenure)
				74/2 Pt	Private	Dry	1890	Sunita Dundaram Nichite, Dundaram Gosavi Nichite Other Rights- Right to use of BPCL Bombay Manmad PipeLine
				80/1 Pt	Private	Dry	1120	Dundaram Gosavi Nichite
				97 Pt	Private	Dry	530	Prop. Amar Pinjomal Asrani for Vestekas Koram Industries Other Rights- Right to use of BPCL Bombay Manmad PipeLine, Transaction in Contravention of Tenancy Act
				73/2	Private	Dry	1500	Dundaram and Jaghannath Gosavi Nichite, Other Rights- Right to use of BPCL Bombay Manmad PipeLine
				72/1 Pt	Private	Dry	1490	Parmila Vishvanath Mebhani, (Conditional Tenure)
				84/1 Pt	Private	Dry	200	Pavankumar Budharam Goyal, Forest Director Pratima Nandalal Thakker for M/s. Paras Plastopacks Pvt. Ltd., Forest. Director Chandrakant Ramji Anam for M/s. Paras Mouldings Pvt. Ltd., Forest. Director Nandlal Madhvani Thakkar for M/s. Paras Polysacs Pvt. Ltd., Forest. Open Space
				85/8 Pt	Private	Dry	1100	Pramiladevi Kailaschand Agrawal, Other Rights - Right to use of BPCL Bombay Manmad PipeLine, Forest.
				73/1 Pt	Private	Non-Agricultural	1500	Abdul Reheman H. Lakadwala, Hamida Reheman Lakadwala- Other Rights - Contravention of NA Order.
				80/14/1 Pt	Private	Non-Agricultural	1850	Atgaon Industries Pvt. Ltd. Open Space & Internal Road.
				84/3 Pt	Private	Non-Agricultural	4300	Chandrakant Kasinath Pawar-Other Rights - Forest, Open Space, Garden & Control Pipe, Road
				18 Pt	Private	Wet	100	Mansu Parsu Varli, Anandibai Pandu Varli, Jankibai Kushi Ghulum, Vimal, Vishnu and Asha Laxman Harad, Other Rights-Tai Lasha Phufane, Raghi Ladku Desale, Right to use of BPCL Bombay Manmad Pipe Line 3330 Sq.m
				19/1 Pt	Private	wet	100	Vilas, Anandi, Manjula Namdev Nichite, (New Tenure), Balkrushna, Pundalik, Mirabai Hari Nichite, Shalubai Yashwant Gole, Rakhmabai Hari Nichite, Sulochana, Ranjana, Anjana, Satish, Rekha Ragho Nichite, Rajesh, Vinod Ganpat Nichite, Krupa Anil Ghodvinde, Kavita Arun Varanjule, Pramila Ganpat Nichite, (New Tenure) Narayan, Bapu, Maruti, Savitribai Bhiva Nichite, Bhimabai, Govind, Balu, Pramod Shantaram Nichite, Alka Bhondve, Sangeeta Yashwant Loni, (New Tenure), Forest.
				19/2 Pt	Private	Dry	200	Vilas, Anandi, Manjula Namdev Nichite Other Rights-Right to Use of BPCL Bombay Manmad Pipeline 1525 Sq.m.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				20 Pt	Private	Wet	59	Vilas, Anandi, Manjula Namdev Nichite, - (New Tenure), Balkrushna, Pundalik, Mirabai Hari Nichite, Shalubai Yashwant Gole, Rakhamabai Hari Nichite, Sulochana, Ranjana, Anjana, satish, Rekha Ragho Nichite, Rajesh, Vinod Ganpat Nichite, Krupa Anil Ghodvinde, Kavita Arun Varanjule, Pramila Ganpat Nichite, - (New Tenure) Narayan, Bapu, Maruti, Savitribai Bhiva Nichite, Bhimabai, Govind, Balu, Pramod Shantaram Nichite, Alka Bhondve, Sangeeta Yashwant Loni. - (New Tenure),
				73/1Pt	Private	Dry	100	Madhav Ramchandra Mhatre, Archan, Navnit, Virendar Shivial Bhaunushali, Jusmita Ajit Bhaunushali, Kamini Krushna Bhaunushali, Gita Vaibhav Bhaunushali, Other Rights- Right to use of BPCL Bombay Manmad Pipe Line 1350 Sq.m. Abdul Reheman H. Lakadwala, Hamida Reheman Lakadwala Other Rights-Contravention of NA
				72/1 Pt	Private	Dry	100	Pramila Vishvanath Mebhani, - (Conditional Tenure)
				74/2 Pt	Private	Dry+Non-Agricultural	150	Sunita Dundaram Nichite, Other Rights- Right to use of BPCL Bombay Manmad Pipe Line 1 Dundaram Gosavi Nichite Open Space & Constructions
				80/13 Pt	Private	Dry	1500	Director Amar Pinjomal Asrani for M/s. Pinjomal Power Pvt. Ltd. Prop. Muralidhar Harjundas Pharsavani for M/s. Anand Art Electronics, Jotwani for M/s. Spartan Engineering Pvt. Ltd.
				80/14/2 Pt	Private	Dry	600	Dundaram Gosavi Nichite, Jagannath Gosavi Nichite,
				80/14/1Pt	Private	Non-Agricultural	600	Atgaon Industries Pvt. Ltd. Open Space, Road, Internal Road.
				80/1 Pt	Private	Dry	600	Dundaram Gosavi Nichite
				83A/1 Pt	Private	Non-Agricultural	200	Forest, Other Rights - Right to use of BPCL Bombay Manmad Pipeline, Midland Steel Process P.Ltd., Open Space, Constructions
				83A/2 Pt	Private	Non-Agricultural	3600	Forest, Other Rights - Right to use of BPCL Bombay Manmad Pipeline, Midland Steel Process P.Ltd., Open Space, Constructions
				83A/3 Pt	Private	Non-Agricultural	1162	Ajay Joshi & Shibu Kurup for Prism Life Sciences Ltd, Other Rights-Right to use of BPCL Bombay Manmad Pipeline, HUF Krushna Vaiku Nichite Other Rights-Right to use of BPCL Bombay Manmad Pipeline,
				97Pt	Private	wet	163	Amar Pinjomal Asrani for M/s. Vestex Koram Industries Other Rights -Transaction in Contravention of Tenancy Act, Right to use of BPCL Bombay Manmad Pipeline
			(17) Golbhan	22 Pt	Private	Wet+Dry	200	Eknath Shankar Gharat
				33 Pt	Private	Wet+Dry	1500	Raghunath, Babu, Pandit, Gulab, Chandrabhaga Ramchandra Gharat
				37Pt	Private	Dry	600	Vitthal, Dattatray Kashinath Gharat
				45Pt	Private	Wet	40	Gopal, Balu Shankar Umbergode, Sakubai Hema Vide, Gajabai Manglu Gharat, Tulsabai Shankar Gharat
			(18) Varskol	66/3 Pt	Private	Wet	130	Gopal, Balu shankar Umbergode, Sakubai Hema Vide, Gajabai Manglu Gharat, Tulsabai Shankar Umbergode
			(19) Khardi	43/2 Pt	Private	Non-Agricultural	1900	Ismail Gulam Bansimiya, Usman Iamail Patel, Abubakar Abdul Rahim Saleh, Nafisa Abdul Kadar Sipra, Eknath Chandu Jadhav, Gerge Paul, Other rights- Loan of Rs. 8,80,000.00 of Maharashtra State of Electricity Board.
				27 Pt	Private	Non-Agricultural	600	Amita S. Shetty Other Rights - Unauthorised minor mineral penalty of Rs. 3,44,000.00
				21/1 Pt	Private	Non-Agricultural	1000	Murtuja Fakir Shaikh, Rustam Fakir Shaikh, Allaiddin Fakir Shaikh
				10/3 Pt	Private	Non-Agricultural	200	Asraf M.K. Haji C.P. Hamid, Rais M.K Haji C.P. Hamid.
				10/3 Pt	Private	Non-Agricultural	150	Asraf M.K. Haji C.P. Hamid, Rais M.K Haji C.P. Hamid.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(20)Asangaon	9/1 Pt	Private	Wet	40	Lilabai Keshay Pawar, Other rights-Loan of Asangaon Society Rs.700/- Vasant, Harichandra, Santosh, Chnadrabhga Krushna Chande, Lilabai Tukaram Mogare, Vijubai Gangaram Nichite, Babibai Ramchandra Gharat
				10/A/1Pt	Private	Wet	270	Arun Ganu Vekhande, Vithabai Vaman Dhamne, Vrushali Tushar Vishwasrao, Pratiksha Bafukrushna Chande, Changuna Ganu Vekhande, Manjula and Krushna, Kavita Sadashiv Vekhande, Haribhau Lahu Vekhande, Sangita Shivaji Chande, Savita Ankush Patil, Other Rights- Right to use of BPCL Bombay Manmad Pipeline, Transaction in Contravention of Tenancy Act
				33 Pt	Private	Wet	90	Uma Mehender Agrawal, Other Rights-Right to use of BPCL Bombay Manmad Pipeline, Lahu, Maruti, savitri Daji Chande, Archana, Darshana, Asha, Yogesh, Nitesh Ramchandra Chande, Guardian Archana Ramchandra Chande, Other Rights-Right to use of BPCL Bombay Manmad Pipeline, Loan of Rs.400/- of Shahapur Adivasi Seva Sahkari Society.
				35/2 Pt	Private	Wet	30	Chandrabhaga, Bhaskar, Pundlik Rakmabai Babu Chande Other Rights - Dundibai Ganpat Kankose
				35/3 Pt	Private	Wet	560	Bhudeji Mahadu Chande
				35/4 Pt	Private	Wet	70	Lahu, Maruti, savitri Daji Chande, Archana, Darshana, Asha, Yogesh, Nitesh Ramchandra Chande, Guardian Archana Ramchandra Chande, Other right - Loan of Rs. 1800/- of Asangaon Society, Right to use of BPCL Bombay Manmad Pipeline.
				43/2	Private	Dry+ Potkharaba	140	Gitadevi Arjun Choudhari, Vijay Dattaram Rane- (Conditional Tenure) Other Rights - conditions as per Mutation entry in Survey No. 43/1
				43/4 Pt	Private	Wet	50	Shankar Kushaba Deshmukh (Conditional Tenure) Other Rights - conditions as per Mutation entry in Survey No. 18
				43/4Pt	Private	Wet	100	Shankar Kushaba Deshmukh Other Rights - conditions as per Mutation entry in Survey No. 18
				165/A/1 Pt	Private	Non-Agricultural	530	Natresh & Rajesh Rambhrose Sharma.
				68/1 Pt	Private	Dry	10	Lalit Ratanchand Chheda Other Rights- Forest Indru Raisinghani Dagarbhai Banarasidas Patel for Renu Rashu Developers other Rights- Forest
				37/A/7 Pt	Private	Non-Agricultural+ Wet	860	Mahendra Mangilal Agrawal Other Rights- Right to Use of BPCL Bombay Manmad Pipeline, Bhaskar, Pundalik, Rakhamabai Babu Chande Other Rights- Dundibai Ganpat Kankose, Right to Use of BPCL Bombay Manmad Pipeline
				43/7 Pt	Private	Wet	190	Sulochana Gurnath Gole
				38/2 Pt	Private	Wet	220	Rukhama Construction And Resort Owner Harish Ramchandra Shobhani, Other Rights- Right to Use of BPCL Bombay Manmad Pipeline, Loan of Rs. 2000/- of Shahapur Adivasi Society.
				55	Private	Dry	450	Bhaichandra Dhondu Jadhav
				40/2 Pt	Private	Non-Agricultural	250	Radhesham Sevarmal Agrawal, Other Rights- Right to Use of BPCL Bombay Manmad Pipeline,
				68/5Pt	Private	Non-Agricultural	130	Sant Baba Narenrda Singni for Gurudwara Guptasar Sahab Trust, Indu Raisinghani Dharabhai Vanarasidas Patel for M/s. Renu Rashu Developers Indu Raisinghani Dharabhai Vanarasidas Patel, (Road)
				68/3 Pt	Private	Non-Agricultural	1850	Sant Baba Narenrda Singni for Gurudwara Guptasar Sahab Trust, Indu Raisinghani Dharabhai Vanarasidas Patel for M/s. Renu Rashu Developers Indu Raisinghani Dharabhai Vanarasidas Patel, (Road)
				81/A/2/1 Pt	Private	Non-Agricultural	860	Indu Raisinghani Dharabhai Vanarasidas Patel for M/s. Renu Rashu Developers

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				83/1 Pt	Private	Non-Agricultural	880	Indu Raisinghani Dharabhai Vanarasidas Patel for M/s. Renu Rashu Developers Other Rights - Loan of Stamp Duty of Rs.3392
				92/1Pt	Private	Non-Agricultural	820	Ramprakash Mathuradas Dhingara for M/s. Dhingara Hotel Pvt. Ltd.
				65/1A pt	Private	Dry	150	Ramchandra shivram Munde, Kalu Padu Talpade, Suresh Tukaram Dighe, Dhavala Shankar Talape, Namdev Hari Tohkale, Ekanth Pooja Nadekar, Keru Ragho Bhosale, Utam Vitoba Bhosle, Sontosh Pandurang Bhagare Other Rights-Right to Use of BPCL Bombay Manmad Pipeline
				65/2 Pt	Private	Dry	600	Lalit Ratanchand Chade Other Rights - Forest
				65/2Pt	Private	Dry	900	Lalit Ratanchand Chade Other Rights - Forest
				63APt	Private	Wet	1486	Radhesham Savarnal Agrawal,
				59/3A Pt	Private	Dry	1100	Dhodu Rama Chande Other rights- Loan of Shahapur Adivasi Society Rs.1200/- Right to Use of BPCL Bombay Manmad Pipeline,
				59/4A Pt	Private	Dry	273	Babi Ambo Chande, Shantabai Ambo Chande, Anusaya Kachru Chande, Madhukar, Ravinder Ganpat Bhoir, Kanta Baban Gharat, Kamabai Tukaram Shinde, Vidya Pratiksha, Kunal, Sagar Vasant Chande
				56/6A Pt	Private	Wet	600	Dattu Gopal Bhagare, Kashinath Rambhau, Nivrutti Vittal Gode, Rambhau Manaji Bhagat, Kalu Dhodu Dighe, Sawalaram khandu Sabale, Maruti Mangal Gode, Soma Bhoru Khetade, Pandurag Kalu Aghani, Namdev Punja Nisarade, Kisan Mohan Jangle, Bahiru Tukaram Sable, Soma Ambo Gambhire, Chandu Bandu Mundhe, Sakharan Savlaram Damase, Mahadev Dagadu Damase
				56/5A Pt	Private	Wet	300	Sulochana, Ravindra Kashinath Chande, Rupali, Vaibhav, Namrata Ramesh Chande, Vanita Vijay Bhare, Pournima Sadanand Gadage,
				56/4Pt	Private	Dry	150	Bhalchandra Dhodu Jadhav
				80/1 pt	Private	Wet	250	Sant Baba Narenra Singni for Gurudwara Guptasar Sahab Trust, Indu Rayshigani Dharabhai Vanarasidas Patel for M/s. Renu Rashu Developers, (Road)
				80/3 Pt	Private	Dry	27	Sant Baba Narenra Singni for Gurudwara Guptasar Sahab Trust, Indu Rayshigani Dharabhai Vanarasidas Patel for M/s. Renu Rashu Developers, Road
				88/1 Pt	Private	Dry	200	Sakri, Chaiti and Manda Arjun Chibade
				89/A Pt	Private	Dry	150	Nareish Vittal Patil
			(21) Sarnal	277A Pt	Private	Dry	280	Ramchandra, Pandurang, Uttam, Ganesh, Sakvar Parashram Shelar, Manubai Bhagu Kirpan, Hari Khandu Shelar, Jindal Iron and Steel Company Ltd, Other right-Loan of Rs. 799.25 of Motibai Bhiku Gujar Dtd.15/12/1969, Right to use of BPCL for Bombay Manmad Pipe Line
				277B Pt	Private	Dry	230	Ramchandra, Pandurang, Uttam, Ganesh, Sakvar Parashram Shelar, Manubai Bhagu Kirpan, Hari Khandu Shelar, Jindal Iron And Steel Company Ltd, Other rights-Loan of Rs. 799.25 of Motibai Bhiku Gujar Dtd.15/12/1969, Right to use of BPCL for Bombay Manmad Pipe Line
				283 Pt	Private	Non-Agricultural	700	Nanu, Laxman, Sunita Shantaram Chande, Ravindra, Manjula, Bhaskar, Alka, Nitin Chandrakant Chande
				272 Pt	Private	Dry	300	Jindal Steel and Alloys Ltd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				280 Pt	Private	Dry+Non-Agricultural	228	Vijaya Baku Kathore Other Rights-Loan of Sitaram Vasudev Joshi Rs.550/- & Loan of P.D Gadgil Rs.1300/-, Shatrughnasurya Pratapsingh, Other Rights-Loan of Sitaram Vasudev Joshi Rs.550/- & Loan of P.D Gadgil Rs.1300/-, Madhuban Restaurant, Members Premnath Prabhu Rajput, Madhu Kalkeshnath Rajput, Other rights-Maharashtra State Mahamandal Rs.7,50,000/- Arjun and Baburao Suryabhanji Vanlekar Other right - Maharashtra State Mahamandal Rs.7,50,000/-, Prakash Nakul Patil
				277Pt	Private	Dry	188	Ramchandra, Pandurang, Uttam, Ganesh, Sakvar Parashram Shelar, Manubai Bhagu Kirpan, Hari Kharidu Shelar, Jindal Iron and Steel Company Ltd, Other rights-Loan of Rs. 799.25 of Motibai Bhiku Gujar Dtd.15/12/1969, Right to use of BPCL for Bombay Manmad Pipe Line
			(22) Welholi	200/2 Pt	Private	Non-Agricultural	1750	Mahendar Keshavji Shaha, Pramodkumar Bharat Sinha
				202/8 Pt	Private	NA	550	Director Bharat Bhushan Agrawal for M/s. Ladam Investment & Finances Co. Pvt. Ltd.
				134/1 Pt	Private	Dry	55	Shankar Prasad Sukhlal Singh, Avinash Shankar Prasad Singh.
				134/2 Pt	Private	Wet	1200	Shankar Prasad Sukhlal Singh, Avinash Shankar Prasad Singh.
				134/4	Private	Dry	600	Shankar Prasad Sukhlal Singh, Avinash Shankar Prasad Singh.
				200/7Pt	Private	Dry	450	Toshkumar Haribhau Phukat
				201/1/A	Private	Dry	3000	Director Bharat Bhushan Agrawal for M/s. Ladam Investment & Finances Co. Pvt. Ltd.

[F.No. NHA/BOT-1/11013/2/2003]

S. NARENDRA, Director

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)
(Dept. of Road Transport & Highways)
नया दिल्ली, नई दिल्ली / Govt. of India, New Delhi